



गौरवशाली भारत

वर्ष : 11
अंक : 281
पृष्ठ : 08
नई दिल्ली
शनिवार 23 अप्रैल 2022
मूल्य : 1.50/-
RNI No .DELHIN/2011/38334

नई दिल्ली से प्रकाशित

मुख्य आड़ेटे

पेज 3

दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग दम्पति कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

पेज 5

खन माफिया इकाएल पर सहारनपुर पुलिस ने कसा शिकंजा, एससीपी बोले जल्द होगी गिरफ्तारी

पेज 7

इंडिया आउट कैपेन पर मालदीव सरकार ने लगाया वैन, विपक्षी दल जाएगा अवागत

लालू यादव को मिली जमानत : झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा केस में दी राहत


3 मामलों में पहले ही गिल चुकी है बेल

एजेन्सी
पटना। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। जस्टिस अपरेश कृमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई हुई। लालू को 66 दिन बाद डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राहत मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना।

इसके बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में दलील दी गई कि लालू प्रसाद यादव 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है।

जमा करने होंगे 10 लाख रुपए

हाईकोर्ट ने बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने लालू को सशर्त जमानत दी है। इसके चलते उन्हें CBI कोर्ट की ओर से सजा के साथ मुकदरों की गई जमानत राशि की



आधी राशि कोर्ट में जमा करनी होगी।

3 शर्तों पर गिली बेल

लालू को 3 शर्तों पर बेल मिली है। इसमें 10 लाख के निचले मुचलके की राशि जमा करने के साथ-साथ जमानत के दौरान हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना देश नहीं छोड़ना शामिल है। साथ ही वह अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदल सकते हैं।

लालू सजा की आधी अवधि से ज्यादा सजा काट चुके हैं

पिछली सुनवाई के दौरान CBI ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया था। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने कोर्ट को बताया था कि लालू सजा की आधी अवधि से 11 महीने ज्यादा सजा काट चुके हैं। 15 फरवरी 2022 को लालू यादव को इस मामले में दोषी ठहराया गया था।

जा लिए, पिछली 4 सुनवाई में वया हुआ था

इस मामले में अब तक 4 बार सुनवाई हो चुकी थी। 4 मार्च को याचिका में नुटियां थी। 11 मार्च को लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया गया था। 1 अप्रैल को जज कोर्ट नहीं पहुंचे थे और 8 अप्रैल को सीबीआई ने वक्त मांगा था।

अब निचली अदालत से मामले के रिकॉर्ड हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। साथ ही सीबीआई ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है।

दिल्ली हिंसा : बंगाल कनेक्शन मिला

स्थानीय रहवासी रविवार को तिरंगा यात्रा निकालेंगे, शांति की अपील की

नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में बंगाल कनेक्शन सामने आया है। इसकी जांच के लिए एक टीम बंगाल भेजी गई है। इधर, घटना के 6 दिन बाद एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। शुक्रवार को यहाँ रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मतभेद खत्म होने का ऐलान किया। साथ ही शांति की अपील की।

दोनों समुदाय के लोगों ने कहा कि सांप्रदायिक झगड़े से हमें हिलाकर रख दिया। ये हमारा इतिहास नहीं है। अब रविवार को जहांगीरपुरी के स्थानीय लोग मिलकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे।

मनी लॉडिंग के एंगल से भी होगी जांच

इधर, हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस अब मुख्य आरोपी अंसार के कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया चैट की जानकारी जुटा रही है। पुलिस को शक है कि



अंसार ने ही लोगों को बुलाकर भीड़ जमा की। मामले में अब ईडी की एंटी हो गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को एक पत्र लिखा है, जिसमें हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ PMLA के तहत एक्शन लेने की बात कही गई है।

अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया

काइम ब्रांच तीन और आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी में है। अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया जा चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर जहांगीरपुरी में दिल्ली काइम

ब्रांच ने सीसीटीवी इन्स्टॉल किए हैं। यहाँ गिरगाना चौकियां भी बनाई जाएंगी।

जहांगीरपुरी में राजनीतिक दलों का जगावड़ा

जहांगीरपुरी में शुक्रवार को इंडियन मुस्लिम लीग, बजरंगदल और विश्व हिंदू परिषद का डेलिगेशन पीड़ितों से मिलने पहुंचा। आज ही समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का डेलिगेशन भी आया। गुरुवार को यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे हिंसा वाली जगह नहीं जाने दिया।

हिंसा के बाद बुलडोजर की एंटी, सुप्रीम कोर्ट ने रोकी



दिल्ली हिंसा के बाद बुलडोजर को जहांगीरपुरी इलाके में नगर निगम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को रौंदा शुरू कर दिया। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। बुलडोजर को हुई दूसरी सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों से अपना-अपना जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट में दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी।

अब तक वया-वया हुआ है?

रविवार को दिल्ली में हुए हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा के बाद

इस मामले की जांच काइम ब्रांच को सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने मीडिया को बताया कि हम केस में PMLA एंगल से भी जांच करेंगे।

अब मथुरा की शाही मस्जिद से हटे लाउडस्पीकर

ईदगाह कमेटी ने कहा- सौहार्द के लिया फैसला, 2 दिन पहले श्रीकृष्ण जन्मस्थान से हटे थे

मथुरा। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के बाद अब शादी ईदगाह मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर भी हटा दिए गए हैं। कमेटी ने यह फैसला सौहार्द बनाए रखने के लिए लिया है। इससे पहले बुधवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर लगे लाउडस्पीकर उतार दिए गए थे। भागवत भवन की चोटी पर लगे स्पीकरों में भजन बजाए जाते थे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए।

मस्जिद पर लगे थे 3 लाउडस्पीकर

श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटी शाही ईदगाह मस्जिद में 3 लाउडस्पीकर लगे



हुए थे। शुक्रवार को शाही ईदगाह मस्जिद की देखभाल करने वाली कमेटी ने 2 लाउडस्पीकर को उतार लिया। जबकि एक लाउडस्पीकर अभी लगा हुआ है। कमेटी के लोगों का कहना है कि एक लाउडस्पीकर को आवाज मस्जिद परिसर से बाहर नहीं जाएगा।

शाही ईदगाह मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर से प्रतिदिन पांच वक्त की जाती है। अजान के समय ही एक से डेढ़ मिनट के लिए ही यह लाउडस्पीकर चलाए जाते थे। लेकिन शुक्रवार को नमाज के समय होने वाली अजान पर यह

लाउडस्पीकर नहीं चलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश मिलने से पहले ही श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर प्रबंधन ने लाउडस्पीकर बंद करने का फैसला लिया था। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया था कि भागवत भवन के शिखर पर लगे लाउडस्पीकर बंद कर दिए गए हैं। इन पर प्रतिदिन सुबह के समय मंगला चरण और विष्णु सहस्रनाम का पाठ होता था।

वहीं, इंजामिया कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि उनको अभी कोई शासनादेश नहीं मिला है। लेकिन मस्जिद पर लगे 3 लाउडस्पीकर में से 2 को हटा दिया गया है।

सेना में जल्द शामिल होंगे इलेक्ट्रिक वाहन

नयी दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कुछ कंपनियों ने शुक्रवार को वहाँ अपने वाहनों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने प्रदर्शन किया जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के जल्द सेना में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और सेना के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। टाटा मोटर्स, परफेक्ट मेटल इंडस्ट्रीज और रिवांट मोटर्स ने रक्षा मंत्री तथा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को अपने वाहनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने सेना के बड़े में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम सरकार की नीतियों के अनुरूप है।

भाजपा के नेता घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दे कर रहे वसूली : सिसोदिया

नयी दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी विधायकों से भागीरथी जनता पार्टी (भाजपा) के लोगों द्वारा की जा रही जबरन वसूली के खिलाफ दिल्ली वालों को मदद करने की अपील की है।



जकार लोगों को धमकी दे रहे है कि अगर इतने पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। निगम से जाते-जाते भाजपा ने तय किया है कि जितना पैसा कमाया जा सकता है, कमा लें। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सभी विधायकों को भाजपा की इस गुंडई के

सिसोदिया ने पत्र में कहा है कि हमारे पास कई लोगों से शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब दिल्ली में घरों और दुकानों पर जाकर आम लोगों को धमकी दे रहे है कि अगर इतने पैसे नहीं दोगे तो, तुम्हारे घर पर भी बुलडोजर चलवा देंगे।

सिसोदिया ने शुक्रवार को अपने सभी विधायकों को पत्र लिखकर भाजपा के लोगों द्वारा की जा रही जबरन वसूली के खिलाफ दिल्ली वालों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की बुलडोजर राजनीति के पीछे असली वजह पैसे की उगाही है।

भाजपा वाले, घरों और दुकानों पर

कोविड -19

देश में बुधवार को 18 लाख तीन हजार 558 कोविड टीके लगाये गये

देश में कोरोना के दो हजार से ज्यादा नये मामले

नयी दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर भारी वृद्धि होने लगी है और पिछले 24 घंटों के दौरान में कोरोना के 2,451 नये मामले सामने आए। देश में बुधवार को 18 लाख तीन हजार 558 कोविड टीके लगाये गये। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,87,26,26,515 खोज दी जा चुकी है।



तादादा चार करोड़ 30 लाख 52 हजार 425 हो गयी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 54 लोगों की मृत्यु के बाद कोरोना मृतकों का आंकड़ा पांच लाख 22 हजार 116 पर पहुंच गया। इस दौरान देश में सक्रिय मामलों में 808 की

बढ़ोतरी हुई है, जिससे इनकी कुल संख्या 14,241 हो गयी है। इसी दौरान 1589 मरीज स्वस्थ हुए हैं जिसके साथ ही कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 4,25,16,068 हो गयी है। हरियाणा में सक्रिय मामलों में 166 की वृद्धि हुई है। राज्य में इस

समय 1441 सक्रिय मामले हैं। इस दौरान 201 लोगों के स्वस्थ होने से महामारी से उबरने वाले मरीजों की कुल संख्या 976097 हो गयी। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां कोविड-19 से किसी मरीज की मौत नहीं हुई और मृतकों का आंकड़ा 10,618 पर स्थिर रहा।

केरल में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में 28 की वृद्धि होने से इनकी संख्या 2571 हो गयी है। इससे निजात पाने वाले लोगों की संख्या 256 बढ़कर 6467215 हो गयी, जबकि मृतकों की संख्या में 48 की बढ़ोतरी होने से यह आंकड़ा 68750 पर पहुंच गया है।

उड़ुपी। कर्नाटक के उड़ुपी में दो छात्रों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने से रोक दिया गया। इसके बाद दोनों को कॉलेज से घर भेज दिया गया। दरअसल, इन छात्राओं ने हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जा दाखिल की थी। अर्जा में छात्राओं ने हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मांग की थी।

कोल्लेजे ने हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी। शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार दोनों छात्राओं ने परीक्षा देने से रोक दी गई। इसके बाद दोनों छात्राएं घर लौट गईं।

कर्नाटक में फिर सुर्खियों में हिजाब

कोल्लेजे में हिजाब पहनकर पहुंची 2 छात्राओं को परीक्षा देने से रोका

उड़ुपी। कर्नाटक के उड़ुपी में दो छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा देने से रोक दिया गया। इसके बाद दोनों को कॉलेज से घर भेज दिया गया। दरअसल, इन छात्राओं ने हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जा दाखिल की थी। अर्जा में छात्राओं ने हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मांग की थी।



लेकिन स्कूल ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों छात्राएं घर लौट गईं।

कोल्लेजे ने हिजाब पहनकर परीक्षा देने से रोक दी गई इन दो छात्राओं में से एक ने हाईकोर्ट के हिजाब बैन के फैसले के खिलाफ सीएम बसवराज बोम्मई से अपील भी की है। छात्रा ने कहा-

आपके पास अभी भी हमारे भविष्य को बर्बाद होने से रोकने का मौका है। हिजाब पर प्रतिबंध से कई छात्राएं प्रभावित होंगी, जो इस महीने के अंत में होने वाली प्रो यूनिवर्सिटी परीक्षा में शामिल होना चाहती हैं।

कर्नाटक में स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने पर बैन

बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी को स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए थे। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए छात्राओं की याचिका खारिज कर दी थी।

शार्ट न्यूज

जनरल पांडे ने विधवाओं के गांव का किया दौरा

श्रीनगर । केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर के श्रीनगर के 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डी पी पांडे ने शुक्रवार को दरपोरा की विधवाओं को इफ्तार उपाहार, सिलाई मशीन और सोलर लाइट देकर सम्मानित किया गया और छात्रों के लिए योग्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। जनरल डीपी पांडे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने शुक्रवार को कुपवाड़ा के दरपोरा गांव का दौरा किया और इस दौरान यहां के विशेष रूप से युवाओं से पूरे कश्मीर में राष्ट्र हित में अपना योगदान देने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया उन्होंने यह भी बताया कि इस गांव को ‘ विधवाओं का गांव ’ कहा जाता है। कश्मीर को सीमाकर्ता कुपवाड़ा जिले से शांति का सबक लेना चाहिए, जो कभी उपवादियों का गढ़ था। उन्होंने संबाददाताओं से कहा कि इस गांव में ज्यादातर महिलाओं के विधवा होने के पीछे आलोकवादियों का हाथ रहा है। आज भी ये गांव अतीत की यादें ताजा करता है। इस संघर्ष में कुपवाड़ा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा, यहां के युवा हरियार त्यागकर राष्ट्रीय मुख्यधारा में वापस आए और इसके साथ ही देश में विकास के लिए काम करना चाहिए। सेना से कहा कि दरपोरा में, सेना ने महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक परियोजना योजना तैयार की, जिसमें कुल नौ कौशल केंद्र त्रालपुरा, पंजागाम, वारसुन और दरपोरा में चलाए जा रहे थे। पिछले एक साल में कौशल केंद्रों से 160 लड़कियां समेत 200 छात्रों ने क्वालिफाई किया है। कोर कमांडर ने ग्रामीणों के साथ बातचीत की और उनके सकारात्मक दृष्टिकोण, उच्च प्रेरणा और मजबूत राष्ट्रीय भावना के लिए उनकी सरहाना की और उन्हें सेना से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन जरूरी

श्रीनगर । अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्लाफ बुखारी ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर की समृद्धि के लिए अमन और चैन का होना बहुत जरूरी है। बुखारी ने शुक्रवार को जम्मू के सुंजुबा इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक सुरक्षा अधिकारी के शहीद होने और कईअन्य के घायल होने पर दुःख जताया है। जान जाने और कई अन्य घायल होने की घटना पर दुःख व्यक्त किया। इस मुठभेड़ में दो आतंकवादी भी ढेर हुए हैं। अपनी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि हिंसा और आतंकवाद ने जम्मू और कश्मीर के लोगों के विकास को रोक दिया है और इसका सबसे खराब प्रभाव यहां की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को पहुंची है। बुखारी ने कहा, चूंकि मुठभेड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांबा जिले के निर्धारित दौरे से कुछ दिन पहले हुई है इसलिए इशारा साफ है कि आतंकवादी जम्मू-कश्मीर के शांतिपूर्ण माहौल को नष्ट करने पर उतारू हैं।

अनबझगन ने अप्रिय घटना को रोकने के लिए कदम उठाने का कतिया अग्रह

पुडुचेरी । केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अन्नाद्रमुक (पूर्व) सचिव ए अनबझगन ने शुक्रवार को एनआर कांग्रेस- भाजपा सरकार से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त एहतिवायी कदम उठाने का आग्रह किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। अन्नाद्रमुक पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में विपक्षी दलों ने गुह मंत्री अमिन शाह को पुडुचेरी की यात्रा के दौरान रविवार को काले झंडे दिखाने का फैसला किया है। अनबझगन ने यहां एक बयान में कहा कि कांग्रेस और द्रमुक पार्टियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के श्री शाह के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। दोनों सरकारों ने पिछले पांच वर्षों में वित्तीय संकट का हवाला देकर पुडुचेरी का विकास तहस नहस कर दिया है। अन्नाद्रमुक नेता ने कहा कि वही केंद्रीय अनुदान जो पहले कांग्रेस-डीएमके शासन को मिल रहा था, अब एन आर कांग्रेस-भाजपा सरकार को प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन रंगस्वामी द्वारा निष्पादित कई विकासात्मक उपयायों को सूचीबद्ध किया। अन्नाद्रमुक नेता ने सरकार में भाजपा के हस्तक्षेप को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों पर आक्षर्य व्यक्त किया और कहा कि वर्तमान शासन एन आर कांग्रेस- भाजपा पराबंभन सरकार है।

बंगाल : 1.9 करोड़ के सोने के गहनों के साथ गिरफ्तार छत्तीसगढ़ का आदमी

कोलकाता । रेलवे पुलिस बल ने पूर्वी रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर हावड़ा स्टेशन पर नियमित जांच के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर उसके पास से 1.9 करोड़ रुपये के प्रतिबंधित द्रवों के गहरे जूब किये हैं। बरामद किए गए सोने के आभूषणों का वजन करीब 2.2 किलोग्राम रहा। पूछताछ के दौरान न तो गिरफ्तार हुए शख्स के पास कोई वैध दस्तावेज मिला और न ही वह इन वैधिसाब सोने के गहनों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब दे पाया। उसने बस इतना बताया कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित अपने आभूषणों के दुकान के लिए उसने इनकी खरीददारी कोलकाता के बड़ाबाजार इलाके से की थी। तदनुसार, गुरवार को मामले की सूचना कोलकाता के सीमा शुल्क अधिकारियों को दी गई और आरोपी सहित गहनों को आगे की जांच के लिए उन्हें सीप दिया गया।

असम : मेवानी की रिहाई को लेकर थाने के बाहर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता

गुवाहाटी । असम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कोकराझार पुलिस स्टेशन के बाहर उनकी रिहाई की मांग को विरोध प्रदर्शन किया। जिनेश मेवानी को असम पुलिस ने उनके एक वृद्धि के कारण गिरफ्तार किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोडसे को भगवान मानते हैं, उन्हें गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ शांति और सद्भाव की अपील करनी चाहिए। फिलहाल कोकराझार पुलिस स्टेशन में बंद मेवाणी को रिहा किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र ने भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। मेवानी की गिरफ्तारी उनके खिलाफ असम में दर्ज एक प्रार्थमिकी के सिलसिले में हुई। पुलिस ने उन्हें गुजरात के पटलपुर शहर से गिरफ्तार किया। इसके बाद गु्रवार को पहले उन्हें हवाई मार्ग से गुजरात से गुवाहाटी तक और फिर सड़क के रास्ते कोकराझार लाया गया। यहां उन्हें म्यून्हा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया।

संप्रोक्षण उत्सव का आयोजन नौ मई से होगा

तिरुपति । तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बेंगलुरु के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में नौ मई से अंशुरपनम के साथ मिलकर तीन दिवसीय बालालय अरटाबंधन महा संप्रोक्षण उत्सव का आयोजन करेगा। तीन दिवसीय उत्सव के दौरान दस मई को चतुर्दशा कलश स्थापना के साथ अन्य वैदिक कार्यक्रमों तथा उसी दिन शाम को अम्मावरी विग्रह प्रतिष्ठापन और अस्ट बंधनम का आयोजन किया जायेगा। इस दौरान ग्यारह मई को तड़के महा शांति अभिषेकम के साथ मिथुन लान में महा संप्रोक्षण का उत्सव मनाया जायेगा तथा बाद में शाम को शांति कल्याणम तथा अम्मावारी मूर्तियों के साथ उत्सव जुलूस निकाला जायेगा।

राजस्थान-हरियाणा अंतरराज्यीय सीमा पुलिस समन्वय बैठक

जयपुर । अन्तरराज्यीय सीमाओं का लाभ उठाने वाले अपराधियों के खत्मे एवं उनके नेक्सस को तोड़ने के लिये शुक्रवार को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में जयपुर रेंज एवं सायथ रेंज, रेवाड़ी, हरियाणा की अंतरराज्यीय सीमा पुलिस समन्वय बैठक आयोजित की गई। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज उमेश चंद्र दत्ता ने बताया कि बैठक में दोनों पुलिस के सीमावर्ती जिलों में एटोएम लूट, शराब तस्करी एवं साईबर के बढ़ते अपराधों की रोकथाम के उपायों तथा दोनों राज्यों के वांछित कॉमन अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। दत्ता ने बताया कि इस संयुक्त बैठक में दोनों रेंजों के पुलिस अधिकारियों द्वारा तय किया गया कि वे आदान अपराधियों के खिलाफ एक संयुक्त ब्यूह रचना बनाकर समय-समय पर धरपकड़ अभियान चलायेंगे।

आंध्र प्रदेश : सरकारी अस्पताल में युवती से गैंगरेप

शिकायत की अनदेखी के आरोप में इंस्पेक्टर-एसआई सस्पेंड

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के एन्टीआर जिले के विजयवाड़ा सरकारी अस्पताल में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस केस में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर तीन दिन पहले माता-पिता की ओर से 23 वर्षीय बेटी के लापता होने के बारे में की गई शिकायत की अनदेखी करने का आरोप है। मुख्यमंत्री वई एस जगन मोहन रेड्डी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस महानिदेशक के आर वी राजेंद्रनाथ रेड्डी ने जे आर के हनीश बाबू और पुलिस उप-निरीक्षक श्रीनिवास राव को त्यागवाही के लिए निर्लांबित करने की घोषणा की। सीएम जगन ने यह भी निर्देश दिया है



कि विजयवाड़ा सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। अस्पताल के मुख्य अधीक्षक और निवासी चिकित्सा अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीनों आरोपियों की पहचान एक फॉगिंग एजेंसी के कर्मचारी के रूप में की गई, जिसे ठेकेदार ने सफाई और फॉगिंग के लिए लगाया था।

हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं, कर्नाटक की 2 छात्राओं ने छोड़ा एग्जाम

एजेंसी — उडुपी। हिजाब को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय जाने वाली आठ मुस्लिम छात्रओं में से कम से कम दो ने उडुपी जिले में प्रवेश से वंचित होने के बाद अपने दूसरे वर्ष के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज (पीयूसी) की परीक्षा नहीं देने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए एक वीडियो में दो छात्राओं- रेशम और आलिया अदवी- को कॉलेज से दूर जाने हुए देखा गया। उडुपी वर्नमैन्ट ग्लव्स पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्रे गौड़ा ने एचटी को बताया, आलिया और रेशम ने आज सुबह अपना हॉल टिकट लिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों को रैंडम बनाया गया है इसलिए उन्हें नहीं पता कि उनके छात्र परीक्षा में शामिल हुए या नहीं। पीयूसी द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुक्रवार से शुरू हुई और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों का आज (शुक्रवार को) पेपर है। गौड़ा ने कहा कि कुछ छात्र जो आंदोलन का हिस्सा थे, वे विज्ञान वर्ग से हैं और उसकी परीक्षा शनिवार को होगी। दिसंबर 2021 में, कम से कम आठ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।

1 जनवरी को, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल (सीडीसी) ने कैम्पस के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया, जिसके विरोध में कॉलेज की इमारत के बाहर (कैम्पस

कश्मीर में बारिश, हिमपात के बाद तापमान में गिरावट

एजेंसी — श्रीनगर । केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश तथ बर्फबारी के बाद कई हिस्सों में शुक्रवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई हैं। मैसम विभाग ने कहा, जम्मू-कश्मीर में पिछले दो दिनों के दौरान दूर-दराज के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बदल छाप रहने हल्की बारिश और

सीएमओ की विज्ञप्ति में कहा गया, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अस्पताल के लिए ठेका देने वाली सुरक्षा एजेंसी और फॉगिंग एजेंसी की सेवाएं भी समाप्त की जाएं। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक को घटना की पूरी जांच करने के लिए कहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल में महिला के साथ सामूहिक दुर्कर्म को गंभीरता से लेते हुए जगन ने शहर के बीचोबीच हुई घटना पर दुःख जताया। उन्होंने पुलिस

के भीतर) छात्र धरने पर बैठ गए थे। हालांकि, कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि हिजाब को कक्षाओं के अंदर कभी भी अनुमति नहीं दी गई। फरवरी तक, जैसे ही पूरे राज्य में विवाद फैल गया, कुछ छात्रों ने भागा शॉल पहनकर विरोध किया। 13 फरवरी को, सरकारी पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा कम से कम 25 हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश से रोक दिया और गेट बंद करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जहां इस मुद्दे को पहली बार उडुपी के सरकारी कॉलेज में उठाया गया था, वहीं इसका प्रभाव राज्य के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी महसूस किया गया है।

दौरान तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो पिछली रात दस डिग्री सेल्सियस था। हालांकि यह समान्य से 0.× डिग्री सेल्सियस कम हैं। उत्तरी कश्मीर में गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में 15.4 मिमी बारिश हुई। यहां तापमान पिछली रात दो डिग्री सेल्सियस की तुलना में रात के दौरान तापमान शून्य रहा। इस दौरान यह सामान्य से ×.× डिग्री सेल्सियस कम है। काजीकुंड में इस दौरान 2×.2 मिमी बारिश हुई तथा तापमान पिछली रात

आंपरेटर के रूप में काम करते हैं। सरकारी अस्पताल में नौकरी दिलाने का वादा करके बुलाया

मुख्यमंत्री ने बलात्कार पीड़िता के परिवार को सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की राशि देने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परिवार को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया। विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त टी कंठी राणा टाटा नर बत्ताया कि आरोपियों की पहचान दारा श्रीकांत (26), चेन्ना बाबू राव (23) और जे पवन कल्याण के रूप में हुई है, जो अस्पताल के कोट नियंत्रण ठेकेदार के साथ फॉगिंग

मुंबई पुलिस के हत्ये चढ़ा वकील और उसका साथी, बिल्डर से मांगी थी 4 करोड़ की रंगदारी

मुंबई । मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गुरुवार रात एक बिल्डर से 4 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में 43 वर्षीय वकील समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को तब पकड़ा गया जब वे रंगदारी की 60 लाख रुपये की पहली किस्त लेने पहुंचे। पुलिस पहले से घात लगाकर इंंतजार कर रही थी और जैसे ही वे मौके पर पहुंचे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पेशे से वकील 43 वर्षीय संतोष संस्कार और उसके सहयोगी अर्जुन मुल्तानी के रूप में हुई है। अपराध शाखा के सूत्रों के अनुसार, मामले में शिकायतकर्ता अरिहत रियल्टर्स है, जिन्होंने चेंबूर के अमर महल इलाके के

राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के 34 नये मामले सामने आए

जयपुर । राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं और शुक्रवार को इसके 34 नये मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग के अनुसार इनमें सर्वाधिक 31 नये मामले जयपुर में सामने आये जबकि अजमेर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर में एक-एक नया मामला सामने आया जबकि 29 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। नये मामले के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब तक 12 लाख 83 हजार 299 हो गई। प्रदेश में 15 मरीजों के और स्वस्थ होने से अब तक 12 लाख 73 हजार 606 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या 141 हैं। इनमें सर्वाधिक 124 सक्रिय मरीज जयपुर जिले में हैं एवं जोधपुर में चार, अजमेर, धौलपुर एवं उदयपुर में तीन-तीन, बीकानेर में दो तथा भीलवाड़ा एवं दौसा में एक-एक सक्रिय मरीज हैं जबकि 25 जिलों कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 9552 लोगों की मौत हो चुकी हैं।

मोदी के दौरे से पहले जम्मू में सुरक्षा त्ववस्था चाक-चौबंद



जम्मू । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल के जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के दौरे से पहले जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गयी है। इस बीच, उनके आगमन से दो दिन पहले शुक्रवार को जम्मू के सुंजुवान इलाके में सुबह छह घंटे तक चली मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गये और सीआईएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। मुठभेड़ में छह सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। मोदी पंचायती राज दिवस के मौके पर पल्ली गांव में पंचायत सदस्यों को संबोधित करेंगे। जम्मू-कश्मीर से अन्तच्छेद 370 हटायें जाने के बाद से प्रधानमंत्री का यह पहला कश्मीर दौरा होगा। उनके दौरे के महेंजनर पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू-कश्मीर पुलिस की संकट प्रतिक्रिया

की संभावना है। खुफिया एजेंसियों ने पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, खासकर अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास तो परिदा भी पर नहीं मार सकता। सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस सीमा सुरक्षा बल के साथ सीमा पर गश्त कर रही है। मोदी अपने दौरे पर करोड़ों की औद्योगिक परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए औद्योगिक निवेश भी लॉन्च करेंगे। वह कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जम्मू क्षेत्र के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर अतिरिक्त जांच चौकियां

हिमाचल की विकास जरूरतों के प्रति सदैव संवेदनशील रहे मोदी : ठाकुर

एजेंसी — शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि यह राज्य के लोगों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और राज्य की विकास आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में शुक्रवार को जनसभा को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुनिश्चित किया कि देश में कोई भी व्यक्ति भोजन, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य आवश्यक चीजों से वंचित न रहे। प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी महामारी के दौरान जरूरतमंदों को 50 लाख से अधिक मास्क प्रदान कर सराहनीय कार्य



किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास सदैव स्मरण करेगा कि महामारी संकट काल में किसने देश को इस परीक्षा की घड़ी में सफलतापूर्वक बाहर निकाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से ही देश स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आरम्भ करने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा

कि राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। प्रदेश पात्र आयु वर्ग के शत-प्रतिशत टीकाकरण के मामले में भी देश में प्रथम स्थान पर रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों की विकासोन्मुखी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण ही भाजपा देश के उन पांच राज्यों में से चार राज्यों में फिर से सरकार बनाने में सफल रही, जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस जीत के बाद कांग्रेस नेता इन चार राज्यों में मिली करारी हार के बाद निद्रा में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय किए गए 400 करोड़ रुपये की तुलना में वर्तमान राज्य

अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार

अजमेर। राजस्थान में अजमेर जिले के जवाजा में पुलिस ने अवैध देशी पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। अजमेर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर जवाजा थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी एवं तस्करों की घडपकड़ कार्यवाही के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ जवाजा थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान ब्यूवर की तरफ से आ रही एक ब्लैक स्कॉर्पियो को रुकवाकर जांच शुरू की तो वाहन चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भीम की तरफ भागने का प्रयास किया। पुलिस ने अपने वाहन के जरिए पीछा कर उसे पकड़। इससे पहले युवक ने हवा में पिस्टल लहराते हुए जंगल की ओर भागने का भी प्रयास किया।

राजस्थान में अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार किया जा सकता है। अजमेर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर जवाजा थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी एवं तस्करों की घडपकड़ कार्यवाही के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ जवाजा थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान ब्यूवर की तरफ से आ रही एक ब्लैक स्कॉर्पियो को रुकवाकर जांच शुरू की तो वाहन चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भीम की तरफ भागने का प्रयास किया। पुलिस ने अपने वाहन के जरिए पीछा कर उसे पकड़। इससे पहले युवक ने हवा में पिस्टल लहराते हुए जंगल की ओर भागने का भी प्रयास किया।

अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार

अजमेर। राजस्थान में अजमेर जिले के जवाजा में पुलिस ने अवैध देशी पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। अजमेर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर जवाजा थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी एवं तस्करों की घडपकड़ कार्यवाही के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ जवाजा थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान ब्यूवर की तरफ से आ रही एक ब्लैक स्कॉर्पियो को रुकवाकर जांच शुरू की तो वाहन चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भीम की तरफ भागने का प्रयास किया। पुलिस ने अपने वाहन के जरिए पीछा कर उसे पकड़। इससे पहले युवक ने हवा में पिस्टल लहराते हुए जंगल की ओर भागने का भी प्रयास किया।

शार्ट न्यूज

अभिषेक राठौड़ ने संभाला रक्षा सम्पदा अधिकारी, दिल्ली मंडल का कार्यभार

विवेक राय गौरवशाली भारत



नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय के अधीन दिल्ली छवनी स्थित रक्षा सम्पदा कार्यालय ,दिल्ली मंडल में श्री अभिषेक राठौड़ ने रक्षा सम्पदा अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है।श्री अभिषेक राठौड़ भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा के अधिकारी हैं। तेज तर्रार व बेहद ईमानदार छवि के श्री राठौड़ इससे पूर्व रानीखेत,नैनीताल, क्लेमनटाउन जैसी छवनिवर्तों के सीईओ रह चुके हैं।श्री अभिषेक राठौड़ पूर्व में महानिदेशालय ,रक्षा संपदा ,दिल्ली छवनी में बतौर डी ए डी जी के रूप में भी अपनी सेवार्थ दे चुके हैं।

बच्चों ने चित्रों और कलाकृतियों के साथ दिया पर्यावरण जागरूकता का संदेश

नई दिल्ली। श्रीराम वंडर्स इयर्स रोहिणी विद्यालय में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल, 2022 तक पृथ्वी सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह को 'आइए प्रतिदिन पृथ्वी दिवस बनाएँ' थीम के साथ मनाया, इसमें नहने-मुण्नों ने पर्यावरण के प्रति जागरूक करने वाली पेंटिंग, पोस्टर, हैंड प्रिंट क्राफ्ट बनाया इसके साथ ही पौधे लगाने से लेकर कई छोटी-छोटी गतिविधियों को आयोजित किया। द श्रीराम वंडर्स इयर्स विद्यालय की प्रमुख शुभी सोनी ने कहा, "बच्चों को पृथ्वी और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इसमें बच्चों ने काफी उत्साह से हिस्सा लिया। इनकी कलाकृतियां प्रेरित करने वाली हैं, इनकी रचनात्मकता और गतिविधियों को देखकर लगता है कि इनमें पर्यावरण के प्रति समझ है और ये आगे चलकर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।

दिल्ली के प्रमुख बाजारों का रिडेवलपमेंट करने के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि निश्चित

आनंद राय गौरवशाली भारत

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपने इस साल के वार्षिक बजट में दिल्ली के प्रमुख बाजारों का रिडेवलपमेंट करने के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की है। इसके अंतर्गत दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष शरी मनीष सिसोदिया जी द्वारा मार्केट डेवलपमेंट के लिए 21 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय के सभागार में एक सभा बुलाई, इस सभा में फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन श्री परमजीत सिंह पन्ना जी महासचिव श्री कमल कुमार एवं महासचिव श्री सुशील जैन के अलावा दिल्ली की लगभग 40 व्यापारिक संस्थाओं के प्रेसिडेंटकारियों ने भाग लिया। फेडरेशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पन्ना सदर बाजार का पक्ष रखते हुए मनीष सिसोदिया जी को सदर बाजार की समस्त समस्याओं जैसे जलभराव, टूटी सड़कें, लटरकी हुई बिजली की तारें, पार्किंग और शौचालयों का अभाव से अलगत करवाया और साथ में ये भरोसा भी दिलाया कि दिल्ली सरकार की इस योजना में फेडरेशन अपना पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। श्री मनीष सिसोदिया ने पन्ना जी के विचारों को बड़े धैर्य से सुन भयवादा करते हुए ये आश्वासन दिया कि सदर बाजार को समस्त समस्याओं का शीघ्र ही उचित हल निकालने का प्रयास किया जाएगा।

हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना ही कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता : जय भगवान गायल

प्रफुल्ल राय गौरवशाली भारत

नई दिल्ली। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने राजस्थान के राजगढ़ में 300 साल पुराने हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने, मूर्तियों पर जूते समेत चढ़ाने और मूर्तियों को आरी के साथ काटने पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राष्ट्रवादी शिवसेना सुग्रीमों श्री जय भगवान गायल ने राजगढ़ की इस घटना को कड़ी भर्त्सना करते करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना ही कांग्रेस का सैकुलरिज्म है। कांग्रेस एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए कभी राम मंदिर का विरोध करती है और कभी जानबूझकर राम के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगाती है लेकिन चुनाव के समय यही कांग्रेसी माथे पर तिलक लगाकर जनेऊ धारण करके हिंदू होने का ढोंग भी करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह हिंदुओं का विरोध सार्वजनिक मंचों पर करते नजर आते हैं जबकि कपिल सिब्बल जैसे नेता सर्वोच्च न्यायालय में हिंदू विरोध का कोई मौका नहीं जाने देते। गायल ने कहा कि पहले कोरोली में हिंदुओं के घरों और दुकानों को लूटने व जलाने की खुली छूट दी गई। विगत 18 अप्रैल को ही राजगढ़ में हिंदुओं के पक्के बने 85 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इसके विपरीत कांग्रेसी भारत में गुजरामांनों पर अत्याचार का बूटा हिंदोरा पीट कर देश- विदेश में भारत को छवि धूमिल करने में लगी है। गायल ने केंद्र सरकार से अपील की कि यदि मंदिर का पुनर्निर्माण राजस्थान सरकार नहीं करवाती तो उसे भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।

विवाहित महिला की बच्चों के सामने चाकू मारकर हत्या, पूर्व पड़ोसी है आरोपी

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिमो दिल्ली के सागरपुर इलाके में गुरवार को एक महिला की उसके बच्चों के सामने चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें सागरपुर थाने में दोपहर करीब दो बजे पोंसीआर कॉल मिली कि एक महिला को चाकू मारा गया है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे। पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आगे कहा कि घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि आरोपी उस महिला का पीछा कर रहा था, जब वह अपने बच्चों के साथ घर जा रही थी। दोपहर करीब 2.10 बजे आरोपी ने उसे चाकू मार दिया और फरार हो गया। इस बीच, पुलिस की शुरुआती जांच करने पर पता चला कि मृतका और आरोपी पहले पड़ोसी थे। हालांकि, हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनका पता लगाने का प्रयास कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

बिसरख पुलिस ने तीन गांजा तस्करो को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम गांजा सहित अवैध असलहा बरामद



ग्रेटर नोएडा। थाना बिसरख पुलिस ने गुरवार को तीन गांजा तस्करो संतोष पुत्र शिवकुमार निवासी चिपारा प्रांगित नगर थाना बयोर जिला पटना बिहार वर्तमान पता पतवाड़ी का बाग अच्छेजा बादपुर गौतमबुद्धनगर, गौतम कुमार पुत्र अनिल पार्श्वान निवासी-जमालपुर टोला रामनगर थाना धनवर जिला पटना बिहार वर्तमान पता पतवाड़ी का बाग अच्छेजा बादलपुर गौतमबुद्धनगर, छोट्ट उर्फ नरदन कुमार पुत्र शैलेश पासवान निवासी ग्राम निडिया तुलसीपुर थाना चिसोरा जिला नालन्दा बिहार वर्तमान पता पतवाड़ी का बाग अच्छेजा बिबल पुत्र गौतमबुद्धनगर को रेलवे छपरोला फाटक से 6 प्रतिशत की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 2 किलो 100 ग्राम गांजा और दो तमंचे तीन सौ पन्द्रह बोर मय चार कारतूस जिन्दा बरामद किए हैं।

‘जहांगीरपुरी हिंसा से एक सप्ताह पहले रची गई थी साजिश’

नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा एक सोची-समझी साजिश का नतीजा थी और इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। खुफिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस हिंसा की साजिश एक सप्ताह पहले ही रच गई थी, जिसे अंजाम देने के लिए छतों पर पत्थर, रोड़े और ईंटें एकत्रित कर ली गई थीं। आरोपी अंसार ही

इसका मास्टरमाइंड है। आईबी सूत्रों की मानें तो रामनवमी वाले दिन अंसार ने करीब एक दर्जन लोगों के साथ कुशल चौक के पास एक बैठक की थी। इस बैठक में हिंसा की साजिश को रचा गया था। जिसमें यह तय हुआ था कि हनुमान जयंती की शोभायात्रा को कुशल चौक से नहीं गुजरने दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले



दिल्ली पुलिस ने भी जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बारे में गृह मंत्रालय को सूची

निराधार और मनगढन्त आरोप लगाना शोभा नहीं देता : बिधूड़ी

बचकाना बयानबाजी की बजाय अपने कामकाज पर ध्यान दें आप नेता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं द्वारा भाजपा निगम पार्षदों पर लगाए गए आरोपों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आप नेता कोई एक झूठ गढ़ लेते हैं और फिर उस पर दिन भर प्रलाप करते रहते हैं। जनाता उनके इस व्यवहार से तंग आ चुकी है।

बिधूड़ी ने कहा कि उपमुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के निराधार और मनगढ़न्त आरोप लगाना शोभा नहीं देता। इसकी बजाय उन्हें सरकार चलाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार को उस तरफ ध्यान देने की फुरसत नहीं है।

वह बाजारों को सेनेटाइज करने का इंतजाम नहीं कर रही। इस तरह के झूठे प्रलाप की बजाय अगर आम आदमी

पार्टी के नेता लोगों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की जागरूकता फैलाते नजर आते तो वह रचनात्मक होता। कभी ये जहांगीरपुरी के दंगाइयों को बचाते हुए नजर आते हैं और कभी बुलडोजर विवाद खड़ा करते नजर आते हैं। दिल्ली में आए दिन डीटीसी की बसें जल रही हैं, प्रदूषण का नाग फिर फन फैला रहा है, नए स्कूल खुल नहीं रहे और पुराने स्कूलों को एक करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य

व्यवस्था का हाल सभी कोरोना काल में देख चुके हैं और उसमें सुधार की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया है कि आम आदमी पार्टी के नेता बचकाना बयानबाजी करने की बजाय अगर दिल्ली सरकार के कामकाज पर ध्यान दें तो वह जनता के लिए लाभकारी होगा और वे इस तरह ओछी हरकतें करने वालों की बजाय कुछ जिम्मेदार नागरिक के रूप में नजर आएंगे।

नोएडा में फिर बढ़ी सख्ती, एक दिन में बिना फेस मास्क के 100 से अधिक लोगों के चालान

नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर सौ से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों का चालान गुरवार को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के बाजारों, मेट्रो स्टेशनों और शॉपिंग मॉल जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस जांच के दौरान जारी किया गया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश के अनुसार, जिले के तीनों क्षेत्रों - नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोविड-19 के लिए



जागरूकता अभियान चलाया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारियों ने अभियान के दौरान फेस मास्क भी वितरित किए। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने लोगों से कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की और लोगों को

की अवज्ञा) के तहत जारी किए गए थे। पुलिस ने कहा कि कोविड-19 मानदंडों का पालन नहीं करने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी गई, जबकि अधिकारियों ने वरिष्ठ नागरिकों और आम जनता के साथ बातचीत की, उनसे कई मुद्दों पर सुझाव मांगे। पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर में कोविड-19 मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गुरवार तक जिले में 467 सक्रिय मामले थे, जो राज्य के कुल सक्रिय मामलों (856) में 50 प्रतिशत से अधिक हैं।

गाजियाबाद डबल मर्डर में खुलासा, भाई की हत्या के शक में ली दो लोगों की जान

गाजियाबाद। गाजियाबाद के वेव सिटी सेक्टर चार में बुधवार रात गोली मारकर की गई दारदी के दो युवकों की हत्या पुरानी रंजिश के चलते हुई थी। आरोपियों ने दोनों युवकों को फोन कर अपने छपरोला स्थित ऑफिस पर बुलाया था, जहां से वेव सिटी ले जाकर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक जितेंद्र की पत्नी प्रीति ने तीन आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में पता चला है कि भाई की हत्या के शक में आरोपियों ने दोनों युवकों की जान ले ली। पुलिस के अनुसार, बादलपुर के कृष्णा सिटी की रहने वाली प्रीति ने शिकायत दी थी कि उसका पति जितेंद्र उर्फ जीतू बुधवार को चार बजे बाइक से दुजाना

के रहने वाले विनोद नागर, अनिल नागर व बिहू गैंगस्टर से मिलने गया था। जितेंद्र काफी देर तक जब वापस नहीं आया तो उसने फोन किया। पति ने फोन उठाकर बताया कि फोन विनोद व अनिल के छपरोला स्थित ऑफिस पर बैठे हैं और हरेदर भी यहाँ आने वाला है। हरेदर के आने पर घर के लिए निकलेंगे। प्रीति ने कहा कि इसके बाद भी जितेंद्र नहीं आया तो रात आठ बजे उसने फिर से पति को फोन किया, उस वक वह बहबराया हुआ था। जितेंद्र ने पत्नी प्रीति से कहा कि वह विनोद, अनिल व बिहू जो अभी जेल से छूटकर आए हैं, उनके साथ है और कुछ देर में घर आ जाएंगे और फोन दो पति के साथ पति जितेंद्र उर्फ जीतू बुधवार को चार बजे बाइक से दुजाना

से पति को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। फिर देर रात उसका फोन एक पुलिसकर्मी ने उठाया और बताया कि जितेंद्र और हरेदर की हत्या कर दी गई है। एसपी सिटी प्रथम निपुण अग्रवाल का कहना है कि प्रीति की तहरीर पर आरोपी विनोद नागर, अनिल नागर व बिहू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

पांच टीम हत्यारोपियों की तलाश में जुटी

तीन आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की पांच टीम लगाई गई हैं। आरोपियों के छपरोला स्थित ऑफिस से लेकर घटनास्थल तक के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज तलाशी जा रही है।

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेवर में हुआ स्वास्थ्य मेले का आयोजन

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप एवं जिला अधिकारी सुहास एलवाई के निर्देशों के क्रम में व मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सहयोगी विभागों में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद गौतमबुद्धनगर के समस्त ब्लॉकों में 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सहयोगी विभागों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेवर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। आयोजित स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन जिला अध्यक्ष विजय भाटी, विधानसभा संयोजक जेवर सुधीर त्यागी एवं ब्लाक प्रमुख मुन्नी देवी के द्वारा विधिवत रूप से फीता काटकर किया गया। गुरवार को आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेले में कुल 1288 लाभार्थियों का लाभ आम नागरिकों के पास लाया गया। आयोजित स्वास्थ्य मेले में जिला कार्यक्रम प्रबंधक संजित सिंह, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक कुलदीप राणा, ब्लॉक लेखाकार प्रबन्धक अजय कुमार, बीसीपीएम अन्जुम निगार खान, डीईओ गौरव शर्मा, समस्त सीएचओ, एएएमए, आशा विभिन कार्यक्रमों के संसलटेर, काउडीनेट तथा विशेष चिकित्सकों द्वारा रोगियों को सेवा दी गई। जेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयुष्मान भारत, बाल विकास परियोजना विभाग, शिक्षा विभाग, के द्वारा अपने अपने स्टाल लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

दित्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ उठाने के लिए दित्यांग दम्पति कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

ग्रेटर नोएडा। जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर सुहास एल वाई के निर्देशों के क्रम में जिला दित्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसोदिया ने जनपद के समस्त दित्यांग दंपतियों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि दित्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दित्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत ऐसे दित्यांगजन जिनका विवाह 1 अप्रैल 2021 के बाद हुआ हो वे दित्यांग दंपति उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए विभागीय पोर्टल <http://divyangjan.upsdc.gov.in> पर

स्वप्रमाणित कर अपना ऑनलाइन आवेदन अपलोड करके, हार्ड कॉपी समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला दित्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमरा नंबर 107 विकास भवन सूरजपुर गौतमबुद्धनगर में जमा करा सकते हैं। उन्होंने उक्त योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना पूर्णता ऑनलाइन है तथा ऐसे दित्यांग दंपति द्वारा आवेदन किया जाएगा जिनका विवाह 1 अप्रैल 2021 के बाद हुआ हो, उक्त योजना के तहत दंपति में युवक के दित्यांग होने की दशा में 15000 रूपये व युवती के

दित्यांग होने की दशा में 20000 रूपये तथा पति व पत्नी दोनों के दित्यांग होने की दशा में 35000 की एकमुश्त धनराशि पति पत्नी दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि दित्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दंपति में से कोई भी आयकर दाता न हो, युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि तिथि का अंकन हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समय रहते सभी आवश्यक पत्र के अनुसार दित्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, राष्ट्रीयकृत

संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेले में अपने स्टॉल लगाकर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाई जाए। इसी क्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनपद गौतमबुद्धनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसरख में 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को दित्यांग दम्पति का आयोजन किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसरख में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य मेले एवं अन्य सहयोगी विभागों के द्वारा अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं के संबंध में स्टाल लगाकर विस्तारपरक रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

जेवर पुलिस ने अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड कर पांच अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

एजेंसी

ग्रेटर नोएडा। थाना जेवर पुलिस ने गुरवार को अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड कर पाँच अभियुक्तों बिलात पुत्र फराहीम निवासी मौहल्ला व्यापारियान कस्बा जहंगीरपुर थाना जेवर गौतमबुद्धनगर,आसिफ पुत्र युनुस निवासी मौहल्ला व्यापारियान कस्बा जहंगीरपुर थाना जेवर गौतमबुद्धनगर, समीर पुत्र छोटे निवासी मौहल्ला व्यापारियान कस्बा जहंगीरपुर थाना जेवर

गौतमबुद्धनगर, शाहरूकु पुत्र पम्पू निवासी मौहल्ला व्यापारियान कस्बा जहंगीरपुर थाना जेवर गौतमबुद्धनगर,जगवीर पुत्र परमानन्द मल्लाह निवासी महेया जेवर खादर थाना जेवर गौतमबुद्धनगर को पंच अभियुक्तों बिलात पुत्र फराहीम निवासी मौहल्ला व्यापारियान कस्बा जहंगीरपुर थाना जेवर गौतमबुद्धनगर, आसिफ पुत्र युनुस निवासी मौहल्ला व्यापारियान कस्बा जहंगीरपुर थाना जेवर 8777, दो पिस्टल 32 बोर मय सात कारतूस जिन्दा, एक तमंचा 32 बोर, दो तमंचा बारह बोर मय

एक कारतूस जिन्दा, तीन तमंचा तीन सौ पन्द्रह बोर मय तीन कारतूस जिन्दा, एक अश्वना तमंचा 12 की नाल अश्वनी और भारी मात्रा में अवैध असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। अभियुक्तों में पहेलाछ करने पर बताया कि अभियुक्त जगवीर ग्राम महेया जेवर खादर में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चलाता है। जो अवैध शस्त्र तैयार कर अवैध रूप से शस्त्रों की मांग करने वालों को बेच कर लाभ प्राप्त करता है।

संपादकीय



भारत में गरीबी कम होने के दावे पर

आईएमएफ और विश्व बैंक ने लगाई मुहर

अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने महामारी, गरीबी और असमानता-भारत से मिले साक्ष्य विषय पर एक शोधपत्र जारी किया था, जिसके अनुसार भारत में अत्यंत गरीबी में बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गई है एवं यह अब 0.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई है। अत्यंत गरीब उस व्यक्ति को माना जाता है जिसकी प्रतिदिन आय 1.9 अमेरिकी डॉलर से कम है। इसके तुरंत बाद अब विश्व बैंक ने भी एक पॉलिसी रिसर्च रॉकिंग पेपर (शोध पत्र) जारी किया है। इस शोध पत्र के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के बीच भारत में गरीबी की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2011 में भारत में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या 22.5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2019 में घटकर 10.2 प्रतिशत पर नीचे आ गई है अर्थात् गरीबी की संख्या में 12.3 प्रतिशत की गिरावट दृष्टिगोचर है। अत्यंत चूँकाने वाला एक तथ्य यह भी उभरकर सामने आया है कि भारत के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की संख्या बहुत तेज गति से कम हुई है। जहां ग्रामीण इलाकों में गरीबी की संख्या वर्ष 2011 के 26.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 11.6 प्रतिशत पर आ गई है अर्थात् यह 14.7 प्रतिशत से कम हुई है तो शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 7.9 प्रतिशत से कम हुई है। उक्त शोधपत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी बताया गया है कि वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के बीच गरीबी की संख्या अधिक तेजी से घटी है। वर्ष 2011 से वर्ष 2015 के दौरान गरीबी की संख्या 3.4 प्रतिशत से घटी है वहीं वर्ष 2015 से 2019 के दौरान यह 9.1 प्रतिशत से कम हुई है और यह वर्ष 2015 के 19.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 10 प्रतिशत पर नीचे आ गई है। वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 के दौरान तो गरीबी 3.2 प्रतिशत से कम हुई है यह काफी पिछले दो दशकों के दौरान सबसे तेज गति से गिरने की दर है। ग्रामीण इलाकों में छोटे जोत वाले किसानों की आय में वृद्धि तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छी रही है जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में गरीबी की संख्या वर्ष 2015 के 21.9 प्रतिशत से वर्ष 2019 में घटकर 11.6 प्रतिशत पर नीचे आ गई है, इस प्रकार इसमें 10.3 प्रतिशत की आकर्षक गिरावट दर्ज की गई है। उक्त शोधपत्र में यह भी बताया गया है कि बहुत छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में 2013 और 2019 के बीच वार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है वहीं अधिक बड़ी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष दर्ज हुई है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने तो अपनी रिपोर्ट में भारत द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लिए गए निर्णयों की सराहना करते हुए कहा है कि विशेष रूप से गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) को लागू किए जाने के चलते ही भारत में अत्यधिक गरीबी का स्तर इतना नीचे आ सका है और अब भारत में असमानता का स्तर पिछले 40 वर्षों के दौरान के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। ज्ञातव्य हो कि भारत में मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है एवं इस योजना की अवधि को अभी हाल ही में सितम्बर 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया है। उक्त मुफ्त अनाज, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के अंतर्गत काफ़ी सस्ती दरों पर (दोतीन रुपए प्रति किलो) उपलब्ध कराए जा रहे अनाज के अतिरिक्त है। विश्व बैंक के शोधपत्र में यह भी बताया गया है कि पिछले कई दशकों के बाद पहली बार अत्यधिक गरीबी (ऋय शक्ति समता के संदर्भ में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1.9 डॉलर से कम पर गुजर-बसर करने वाले) में गुजर बसर करने वाले लोगों की संख्या पूरे विश्व में वर्ष 2020 में बढ़ी है। यह वृद्धि पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी के चलते हुई है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या में आ रही भारी कमी दरअसल केंद्र सरकार द्वारा समय समय उठाए जा रहे कई उपायों के चलते सम्भव हो पाई है।

विश्व पृथ्वी दिवस: आखिर क्यों धधक रही है धरती?

योगेश कुमार गोयल

दरअसल धरती की सेहत बिगाड़ने और इसके सौन्दर्य को ग्रहण लगाने में समस्त मानव जाति जिम्मेदार है। आधुनिक युग में मानव जाति की सुख-सुविधा के लिए सुविधाओं के हुए विस्तार ने ही पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है और निरन्तर हो रहा जलवायु परिवर्तन इसी की देन है। इस साल मार्च महिने से ही भीषण गर्मी का जो कहर देखा जा रहा है, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। न केवल मार्च माह में बल्कि अप्रैल मध्य तक तापमान प्रायः सामान्य ही रहता था लेकिन इस बार तापमान जिस तरह के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ऐसे में पूरी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पृथ्वी और ज्यादा तीव्रता के साथ तपेगी और भारत में लोगों को लू का भयानक कहर झेलना पड़ सकता है। वैसे न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी तथा मौसम का बिगड़ता मिजाज गंभीर चिंता का विषय बना है। पर्यावरण के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने तथा पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने और दुनिया के समस्त देशों से इस कार्य में सहयोग व समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को 'विश्व पृथ्वी दिवस' मनाया जाता है। 'पृथ्वी दिवस' पहली बार बड़े स्तर पर 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था और तभी से केवल इसी दिन यह दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। उस आयोजन में समाज के हर वर्ग और क्षेत्र के करीब दो करोड़ अमेरिकियों ने हिस्सा लिया था। उस समय अमेरिकी सोनेटर गेलाडनेल्सन द्वारा पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस महत्वपूर्ण दिवस की स्थापना पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई थी, जिसे अब इसी दिन दुनिया के कई देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

दरअसल धरती की सेहत बिगाड़ने और इसके सौन्दर्य को ग्रहण लगाने में समस्त मानव जाति जिम्मेदार है। आधुनिक युग में मानव जाति की सुख-सुविधा के लिए सुविधाओं के हुए विस्तार ने ही पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है और निरन्तर हो रहा जलवायु परिवर्तन इसी की देन है। हालाँकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विगत वर्षों में दुनियाभर में बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होते रहे हैं और वर्ष 2015 में परिस समीलन में 197 देशों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए अपने-अपने देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने और 2030 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री तक सीमित करने का संकल्प लिया था किन्तु इसके बावजूद इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम उठते नहीं देखे गए हैं। हालाँकि पिछले कुछ वर्षों से वास्तविक भयानक आँधियों, तूफान और ओलावृष्टि के रूप में भी गंभीर संकेत देती रही है कि विकास के नाम पर प्रकृति से भयानक तरीके से खिलवाड़ के बहुत खतरनाक नतीजे होंगे लेकिन फिर भी धरती की सेहत सुधारने के लिए अपेक्षित कारगर कदम नहीं उठते दिख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के नाम पर वैश्विक चिंता व्यक्त करने से आगे हम शायद कुछ करना ही नहीं चाहते। हम यह समझना ही नहीं चाहते कि पहाड़ों का सीना चीरकर हरे-भरे जंगलों को तबाह कर हम जो कंक्रीट के जंगल विकसित कर रहे हैं, वह वास्तव में विकास नहीं बल्कि विकास के नाम पर हम अपने विनाश का ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

पृथ्वी का तापमान यदि इसी प्रकार वर्ष दर वर्ष बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में हमें इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा क्योंकि हमें यह बखूबी समझ लेना होगा कि जो प्रकृति हमें उपहार स्वरूप शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी तथा देवों जनोपयोगी चीजें दे रही है, अगर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पैदा किए जा रहे पर्यावरण संकट के चलते प्रकृति कुपित होती है तो उसे सब कुछ नष्ट कर डालने में पल भर की भी देर नहीं लगेगी।

विश्व पुस्तक दिवस-23 अप्रैल, 2022

पुस्तकें हर आंधी में टीकी रहेगी



-ललित गर्ग -


हर साल 23 अप्रैल को दुनियाभर में विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे कॉपीराइट डे भी कहा जाता है। इस दिवस को किताबें पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट के लाभ को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन कई विश्वप्रसिद्ध लेखकों का जन्मदिवस या पुण्यतिथि होती है। विलियम शेक्सपियर, मिंगुएल डे सर्वेंटिस और जोसेफ अकासा का इसी दिन निधन हुआ था, जबकि मैनुएल मेंडिसा वल्डेजो और मॉरिस झून इसी दिन पैदा हुए थे। यूनेस्को ने 23 अप्रैल 1995 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। पैरिस में यूनेस्को की एक आमसभा में फैसला लिया गया था कि दुनियाभर के लेखकों का सम्मान करने, उनकी श्रद्धांजली देने और किताबों के प्रति रूचि जागृत करने के लिए इस दिवस को मनाया जाएगा।

सर्वविदित है कि पुस्तक का महत्व सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक है, किसी भी युग या आंधी में उसका महत्व कम नहीं हो सकता, इंटरनेट जैसी अनेक आधियाँ आयेगी, लेकिन पुस्तक संस्कृति हर आंधी में अपनी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को बनाये रख सकेगी। क्योंकि पुस्तकें पढ़ने का कोई एक लाभ नहीं होता। पुस्तकें मानसिक रूप से मजबूत बनाती

हैं तथा सोचने समझने के दायरे को बढ़ाती हैं। पुस्तकें नई दुनिया के द्वार खोलती हैं, दुनिया का अच्छा और बुरा चेहरा बताती, अच्छे बुरे का विवेक पैदा करती हैं, हर इंसान के अंदर स्वावल पैदा करती हैं और उसे मानवता एवं मानव-मूल्यों की ओर ले जाती हैं।

मनुष्य के अंदर मानवीय मूल्यों के भंडार में वृद्धि करने में पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये पुस्तकें ही हैं जो बताती हैं कि विरोध करना बुरा जरूरी है। ये ही व्यवस्था विरोधी भी बनाती हैं तो समाज निर्माण की प्रेरणा देती हैं। समाज में कितनी ही बुराियाँ व्याप्त हैं उनसे लड़ने और उनको खत्म करने का काम पुस्तकें ही करवाती हैं। शायद ये पुस्तकें ही हैं जिन्हें पढ़कर प्रथममंत्री नरेन्द्र मोदी आज दुनिया की एक महाशक्ति बन गये हैं। वे स्वयं तो महाशक्ति बने ही है, अपने देश के हर नागरिक को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने देश भर में एक पुस्तक-पठन तथा पुस्तकालय आंदोलन का आह्वान किया है, जिससे न सिर्फ लोग साक्षर होंगे, बल्कि सामाजिक व आर्थिक बदलाव भी आएगा। कालाईल ने बड़ी वजह वाली बात कही है कि पुस्तकों का संकलन ही आज के युग के वास्तविक विद्यालय हैं। शिक्षाविद चार्ल्स विलियम इलायट ने कहा कि पुस्तकें मित्रों में सबसे शांत व स्थिर हैं, एवं सलाहकारों में सबसे सुलभ और बुद्धिमत्ता होती हैं और शिक्षकों में सबसे धैर्यवान तथा श्रेष्ठ होती हैं। निःसंदेह पुस्तकें ज्ञानार्जन करने, मार्गदर्शन एवं परामर्श देने में विशेष भूमिका निभाती है।

नरेन्द्र मोदी प्रयोगधर्मा एवं सृजनकर्मी राजनायक हैं, तभी उन्होंने राष्ट्र, समाज एवं मनुष्य को प्रभावित करने वाले साहित्य के पठन-पाठन की



संस्कृति को जीवंत करने की प्रेरणा दी है। हिन्दी के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचन्द एवं उनकी तीन मशहूर कहानियाँ इंदगाह, नशा और पूर की रात का उल्लेख करते हुए मोदी ने लोगों से अपने दैनिक जीवन में किताबें पढ़ने की आदत डालने का आह्वान किया। साथ ही उपहार में 'बुके नहीं बुक' यानी किताब देने की बात कही। सत्साहित्य में तोप, टैंक और एटम से भी कई गुणा अधिक ताकत होती है। अणुअस्त्र की शक्ति का उपयोग ध्वंसस्त्र ही होता है, पर सत्साहित्य मानव-मूल्यों में आस्था पैदा करके स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण समाज की संरचना करती है। इसी से सरकारात्मक परिवर्तन होता है जो सत्ता एवं कानून से होने वाले परिवर्तन से अधिक स्थायी होता है। यही कारण है कि मोदीजी भारत को बदलने में सत्साहित्य की निर्णायक भूमिका को स्वीकारते हैं।

महात्मा गांधी ने कहा है कि पुराने वस्त्र पहनों पर नई पुस्तकें खरीदी। उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तकों का महत्व रत्नों से कहीं अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्वल करती

हैं। सच्चाई भी यही है कि पुस्तकें ज्ञान के अंतःकरण और सच्चाइयों का भंडार होती हैं। आत्माभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी होती हैं। जिन्होंने पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं या जिन्हें पुस्तक पढ़ने में रुचि नहीं है वे जीवन की कई सच्चाइयों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। हजारप्रसाद द्विवेदी ने तभी तो कहा था कि साहित्य वह जासूस की छड़ी है, जो पशुओं में, ईट-पत्थरों में और पेड़-पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है।

इसलिये साहित्य ही वह मजबूत माध्यम है जो हमारी राष्ट्रीय चेतना को जीवंतता प्रदान कर एवं भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करके उसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी संक्रांत कर सकता है। सत्साहित ही भारतीय संस्कृति के गौरव को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है, इसी से जीवन सरस एवं रम्य हो सकता है। पुस्तकें ही भारतीय जन-चेतना को झुंक्त कर उन्हें नये भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरित कर रही है। तय है कि इससे जीवन-निर्माण के नये दौर की उजली दिशाएँ प्रस्फुटित होती रहेगी।

पुस्तकें अक्सर आपको जीवन के लक्ष्यों को नजदीकी से लक्षित करती हैं जहां से आपको जीवन के लाखों हजारों लोगों के तजुबों की अनगिनत कहानियाँ सिखने और जानने को मिलती हैं। ये किससे जीवन के प्रेरक एवं विलक्षण लम्हों को उकेरते हैं जो कभी न कभी किसी व्यक्ति ने जिया होता है और किसी न किसी व्यक्ति को जीवन का हिस्सा होता है। वही ये पुस्तकें जीवन-विज्ञान की बातें बताती हैं और जीवन को करीब से जानने के लिए प्रेरित करती हैं। पुस्तकें पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम जीवन की कठिन परिस्थितियों से जुझने की शक्ति से परिचित हो जाते हैं और समस्या कितनी भी बड़ी हो हम उससे जीतकर निजात पा जाते हैं। कठिन से कठिन समय पर पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन एवं दिग्दर्शन करती हैं।

जिन मनीषियों ने पुस्तक लिखी है और जिन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक है उन्हें ज्ञानार्जन के लिए धर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। पुस्तक प्रेमी पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे

यूपी भाजपा ने मोदी-नड्डा को भेजी रिपोर्ट में दोबारा जीत का श्रेय मायावती को दिया !

लीटर कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के वोट भाजपा को मिले हैं जोकि जीत का एक बड़ा कारक बना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबीसी वोट बड़ी संख्या में भाजपा से छिटे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले भाजपा ने दोबारा जीत लिया हो लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मुकाबले उसकी सीटों की संख्या काफी कम हो गयी है। इस बात को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चिंता में है क्योंकि चाहे साल का ही प्रभाव रहा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबीसी वोट बड़ी संख्या में भाजपा से छिटे हैं और सहयोगी दल चुनावों में भाजपा की सत्ता उत्तर प्रदेश की बदौलत ही बन पाई है। अब साल 2024 के लोकसभा

चुनावों की तैयारी में जुटी भाजपा ने इस बात पर मंथन शुरू कर दिया है कि क्यों उत्तर प्रदेश विधानसभा में उसकी सीटें पहले के मुकाबले कम हो गयीं ? इस बारे में भाजपा आलाकमान की ओर से पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई से जवाब मांगा गया था जिसने चुनाव परिणामों का विस्तृत विश्लेषण कर एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भेजी है। उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के वोट भाजपा को मिले हैं जोकि जीत का एक बड़ा कारक बना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबीसी वोट बड़ी संख्या में भाजपा से छिटे हैं और सहयोगी दल चुनावों में भाजपा की खास मदद नहीं कर पाये। हर चरण के

चुनाव के हिसाब से तैयार की गयी 80 पन्नों की इस रिपोर्ट में विस्तार से उन कारणों को बताया गया है जिनकी वजह से भाजपा अपने सहयोगी दलों अपना दल (एस) और निपाद पार्टी के साथ 273 सीटें जीत पाई और उन कारणों का भी रिपोर्ट में वर्णन किया गया है जिनकी वजह से बाकी सीटों पर हार मिली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अपना दल से कुर्मी और निपाद पार्टी से निपाद वोट छिटक गये जिसकी वजह से चुनावों में इन समुदायों का भाजपा को वोट नहीं मिल सका। इन दोनों समुदायों के बहुत कम वोट मिलने का ही प्रभाव रहा कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी सिराधु विधानसभा सीट से ही चुनाव हार गये। ओबीसी समुदाय के कुशवाहा, मौर्य, सैनी, कुर्मी, निपाद,

पाल, शाक्य और राजभर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चले गये और भाजपा के हिस्से में इनका बहुत कम वोट प्रतिशत आया। जबकि 2017 के विधानसभा चुनावों में यह सभी समुदाय भाजपा के साथ खड़े रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम वोटों का एकजुट होकर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जाना भी कई सीटों पर एनडीए की हार का कारण बना है। बताया जा रहा है कि भाजपा आलाकमान को इस बात की भी चिंता थी कि जब हाल ही में चलते गये पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान 80 लाख नये सदस्य जुड़े थे और उत्तर प्रदेश में भाजपा के कुल सदस्यों की संख्या दो करोड़ दस लाख के आसपास हो गयी थी तब भी ऐसे परिणाम क्यों आये।



बुलडोजर पर घमासान!!



बुलडोजर पर मचे सियासी घमासान के बीच छठवीं बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन ब्रिटेन के पीएम ने किया और बुलडोजर पर भी चढ़े!!

भारत में बुलडोजर के इस्तेमाल की चर्चा चरम सीमा पर, प्रसिद्धि का विषय बना - एड किरान भावनानी

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर बुलडोजर कोई नया नहीं है यह दशकों पुराना है। और हर आम आदमी इसके परिचित है। यह मुख्य रूप से अनेक स्तरों पर भवन, संपत्ति, मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, खुदाई इत्यादि अनेकों कामों में एक शक्तिशाली यंत्र के रूप में उपयोग होता है, जो सैकड़ों मानवीय शक्ति का, यंत्रों का काम मिनटों में अकेला कर देता है!! स्वाभाविक ही है जैसे-जैसे वैश्विक स्तरपर तकनीकी का

विकास हुआ वैसे वैसे सुविधाओं में वृद्धि होते चली गई सन्धी सुविधाओं का सबसे बड़ा उदाहरण आज बुलडोजर है। साधियों बात अगर हम बुलडोजर का कुछ हट कर काम करने की स्टाइल की करें तो यह भारत में विलिफ चर्चा में 2017 में जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी, तो उसके बाद बुलडोजर का सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। नई सरकार आने के बाद अपराधियों और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलने लगे। जुलाई 2020 में कानपुर के बिकरू में एक को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ था, इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस कांड के बाद वह फ़रार हो गया था, इसके बाद प्रशासन ने बिकरू में उसकी कोठी पर बुलडोजर चला दिया था। माना जाता है कि यहाँ से अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कहानी शुरू हुई।

साधियों बात अगर हम वर्तमान परिपेक्ष में बुलडोजर के इस्तेमाल की चर्चा, प्रसिद्धि का विषय बनने की करें तो यह यूएन से शुरू होकर मध्यप्रदेश, राजस्थान से होकर दिल्ली पहुंचा है। दरअसल उत्तरप्रदेश चुनाव 2022 में बुलडोजर बाबा के रूप में, यूपी विपक्षी नेता द्वारा दिए गए नाम से चर्चित मध्यप्रदेश तक बुलडोजर मामा से होते हुए दो दिन पहले एक राज्यसभा सदस्य के टवीट पर

जिहादी कंट्रोल बोर्ड (जेसीबी) तक पहुँच गया विवाद हुए, जिसे बाद में उन्होंने दिवटर हैंडल से हटा दिया। साधियों कुछ असें से हम देखें जो बुलडोजर (जेसीबी) पर घमासान चल रहा है। यानें यूं कहें तो कुश्ती का अखाड़ा, जुबानी जंग का मैदान, बयानबाजी शेरों का मुख्य अस्त्र बुलडोजर बन गया है!! जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनलों पर देख रहे हैं कि करीब-करीब हर पार्टी के नेता स्वयं या दिवटर द्वारा अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं और मामला दिल्ली से होकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। जिसकी सुनवाई गुरुवार 21 अप्रैल 2022 को हुई और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है तबतक बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगी। ऐसी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई है और आगूमेंट में पक्ष-विपक्ष के तर्कों सहित पूरे देश में बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील भी की गई थीं, जिसे साफ़ इनकार किया गया।

साधियों बात अगर हम बुलडोजर पर मचे सियासी घमासान के बीच छठवीं बुलडोजर जेसीबी कंपनी के उद्घाटन की करें तो दिनांक 21 अप्रैल 2022 को, ब्रिटिश पीएम, पंचमहल जिले में हलोल के पास ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंट कंपनी (जेसीबी) की मैनुफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया, जो जेसीबी कंपनी की है। ब्रिटिश पीएम के हाथों यह उद्घाटन

ऐसे दौर में हुआ, जब भारत की राजनीति में जेसीबी (बुलडोजर) की गूँज हर तरफ़ देखी जा रही है, जिस जेसीबी और बुलडोजर की चर्चा कंस्ट्रक्शन काम में होती है, हाल के दिनों में वह कुछ अस्पष्ट वजहों से खबरों में ज्यादा है। हलोल के इस प्लांट पर कुल लागत 650 करोड़ रुपये की आई है। साधियों बात अगर हम बुलडोजर की करें तो भारत में जेसीबी, जेसीबी इन्डिया लिमिटेड के नाम से काम करती है। यह कंपनी ब्रिटेन की है। भारतीय बाजार में इस कंपनी ने 1979 में एक जॉइंट वेंचर के तौर पर दर्स्तक दी थी। आज यह जे.सी. बैमफोर्ड (जेसीबी) एक्सकेवैटर्स के मालिकाना हक वाली कंपनी है, जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है।

भारत में अब तक जेसीबी की पांच कंपनियाँ थी, गुजरात के नए प्लांट के बाद ये संख्या छह हो गई है, और गुजरात दौरे पर आए ब्रिटिश पीएम ने इसका उद्घाटन किया कंपनी भारत में बनी मशीनें 110 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। जेसीबी ने बैंकहो लोडर (बुलडोजर) को भारत में चार दशक पहले अपनी एंटी के साथ ही उतारा था, तब से आज तक यह 9 क्वार्टरों में 60 प्रोडक्ट उतार चुकी है।

साधियों बात अगर हम दिल्ली में चले बुलडोजर की करें तो यहाँ सुप्रीम

कोर्ट ने रोक लगाई है जबकि अन्य शहरों में बुलडोजर अपना काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम गहराई से देखेंगे तो छठवीं बुलडोजर जेसीबी कंपनी के उद्घाटन के आयोजन के टाइमिंग को भी, अटकलों के साए में देखा जा रहा है वह भी ब्रिटिश पीएम के हाथों किया गया है। हो सकता कि बुलडोजरों का उत्पादन बढ़ाकर आगे ऐसी कार्यवाही विशाल स्तर पर की जाएगी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं!! कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में आगे की राह और राजनीतिक दिशा बुलडोजर आधारित होगी। मेरा अनुमान है कि जैसे-जैसे सरकारें बदलेगी बुलडोजर नीति का चरम सीमा तक विस्तार होने की संभावना है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि बुलडोजर पर घमासान!! बुलडोजर पर मचे सियासी घमासान के बीच छठवीं बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन ब्रिटेन के पीएम ने किया और वे बुलडोजर पर भी चढ़े!! भारत में बुलडोजर के इस्तेमाल की चर्चा, प्रसिद्धि का विषय बना।

संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तनकार एडवोकेट किशन सनल्लुख्यदस भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

पर्यावरण का संरक्षण!

अद्भुत सी सुंदरता है पर्यावरण में, चलो हम भी लाए, कुछ जिम्मेदारियाँ हमारे आचरण में, क्यों फैला रखा है हमने चारों तरफ प्रदूषण, मानवता की भलाई के लिए जरूरी है इसका संरक्षण!

चलो हम सब मिलकर करते हैं वृक्ष रोपण, और फिर से महका देते हैं, सारा वातावरण, इसका विनाश का कैसे बन सकते हैं हम कारण, इसके बिना तो, समाप्त है हमारा जीवन!

प्रकृति से ही तो है हमारा, यशस्वि संबंध, इसके लिए बनाते हैं हम, और भी अधिकियन, हमें यह देती है, वायु, जल, ऑक्सीजन व भोजन, चलो हम सब मिलकर करते हैं, प्रदूषण पर नियंत्रण!

करते हैं हम सब मिलकर, इस खूबसूरत सी प्रकृति को नमन, इस प्रकृति में, हर पदार्थ शुद्ध हो, चाहे वायु हो या वनम, क्यों फैला रखा है हमने चारों तरफ प्रदूषण, मानवता की भलाई के लिए जरूरी है इसका संरक्षण!

मानवता की भलाई के लिए जरूरी है इसका संरक्षण!

शार्ट न्यूज

चार दिन में दोबारा किया पाठक ने बाराबंकी में औचक निरीक्षण



बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने शुक्रवार को पिछले चार दिनों में दूसरी बार सूबे के बाराबंकी में औचक निरीक्षण कर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री पाठक ने जिले के कुर्सी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उनके पहुंचते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। ज्ञात हो कि महज 4 दिन पूर्व ही स्वास्थ्य मंत्री ने बाराबंकी स्थित जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अफसरों को आगाह किया था कि डॉक्टर और और स्टाफ समय पर अस्पताल आवें। स्वास्थ्य मंत्री सीतापुर जनपद के महमूदाबाद से वापस आते समय आज अचानक कुर्सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच गये। अस्पताल में निरीक्षा के दौरान उनको तमाम व्यवस्थागत खामियां मिलीं। इस पर उन्होंने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिये सख्त निर्देश दिये। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान वह अस्पताल परिसर और वार्ड में जाकर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित रजिस्टर को भी चेक किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पाठक ने इससे पहले महमूदाबाद स्थित महिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी औचक निरीक्षण किया। इसके लिये वह अपने सरकारी वाहन को स्वास्थ्य केन्द्र से दूर छोड़कर पैदल चल कर पहुंचे। महिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देखकर चौंक गये। इस दौरान छह कमर्चारी अनुपस्थित मिले और तमाम अन्य व्यवस्थागत खामियां मिलीं। पाठक ने तत्काल जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को तत्काल तलब कर जमकर फटकार लगाते हुए अस्पताल में व्याप्त खामियों को दुरुस्त करने का आदेश दिया।

जौनपुर : तालाब में नहाने गये चार दोस्तों में से दो की डूबने से मौत

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मछलीशहर थाना क्षेत्र के पौंहा गांव में शुक्रवार को तालाब में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई। वहीं दो किशोर बाल-बाल बच गये। पुलिस के अनुसार जिले में मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव के चार दोस्त रिशेरा (16) पुत्र राजेश, सूरज (17) पुत्र शिव प्रसाद, आनंद गौतम और रंजीत गौतम तालाब में नहाने गये थे तथा रिशेरा और सूरज की डूबने से मौत हो गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों युवक शुक्रवार को गेहूँ की फसल की श्रेमिंग के लिये पास के गांव पौंहा गये थे। वापसी में चारों दोस्त पौंहा गांव के तालाब में नहाने लगे। इस दौरान गहराई में जाने से रिशेरा और सूरज डूबने लगे। उन्हें डूबते देख आनंद और रंजीत ने इन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे भी गहराई में जाने लगे। इस कारण आनंद और रंजीत तालाब से बाहर आ गये डूब रहे गोबे डूब रहे दोस्तों के लिये शोरगुल किया। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने तालाब में डूबे दोनों किशोरों को बाहर निकाला लेकिन तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

काशी से चल कर कुशीनगर पहुंचेगी समृद्धि यात्रा

कुशीनगर । कुशीनगर महोत्सव समिति के तत्त्वधान में शनिवार को समृद्धि यात्रा बाबा विश्वनाथ की धरती काशी से चलकर देर शाम तथागत की भूमि कुशीनगर पहुंचेगी। प्रदेश के आठ प्रमुख धार्मिक केंद्रों से होते हुए यह यात्रा कुशीनगर आ रही है। यात्रा शुरू होने से पूर्व शुक्रवार की सुबह तुर्कपट्टी महअवां स्थित सूर्य मंदिर परिसर में दर्शन करने पहुंचे कुशीनगर महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय ने बताया कि वर्ष 2014 से हर साल कुशीनगर महोत्सव समिति अपने प्रदेश की सांस्कृतिक धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर को रेखांकित करते हुए महोत्सव का आयोजन करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग सहभागिता करते हैं। इसी के मद्देनजर पूर्वांचल के धार्मिक स्थलों को रेखांकित करते हुए शनिवार को वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर से भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल इन कुशीनगर तक एक दिवसीय समृद्धि यात्रा प्रस्तावित है। यह यात्रा शनिवार को सुबह 6:30 बजे से बनारस से शुरू होकर सारनाथ, मारकंडेय महादेव कैथी, चंद्रमा ऋषि आश्रम आजमगढ़, बेबीली धाम दोहरीघाट एवं गोरखनाथ मंदिर होते हुए कुशीनगर में पहुंचकर समाप्त होगी। यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख धरोहरों को एक साथ जोड़ना है।

बुलंदशहर में दुष्कर्म के आरोपी को सजा

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना के आरोपी को 14 साल कठोर कारावास और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि जिले के थाना आहार स्थित ग्राम दुलखरा निवासी भोला ने वर्ष 2017 में क्षेत्र निवासी 75 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की थी। इस सम्बन्ध में थाना अहार पर धारा 376,354ए,323 तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने अभियुक्त भोला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित अन्य अपराधों की श्रेणी में चिह्नित कर न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैक्टों की गयी जिसके परिणामस्वरूप इसी के तहत शुक्रवार को न्यायालय, एडीजे पोस्टो-3 बुलन्दशहर ने अभियुक्त भोला को दोषी पाते हुए 14 वर्ष का कठोर कारावास व 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

बहराइच में पुलिस मठभेड़ में दो शांति गिरफ्तार

बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एसटीएफ और मोतीपुर पुलिस ने शुक्रवार को रायबोझा के निकट 50 हजार के इनामी अपराधी को मुठभेड़ में साथी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि लखीमपुर खीरी जिले के कोतवाली धौरहरा क्षेत्र के खवरिया गांव निवासी डमरू उर्फ राम मूर्ति के विरुद्ध गैंग्स्टर समेत 23 मुकदमं दर्ज हैं। डमरू के खिलाफ मोतीपुर, नानपारा और लखीमपुर जनपद में मुकदमा दर्ज हैं लेकिन वह पुलिस की पकड़ से दूर था। दो दिन पूर्व कोर्ट ने आत्व समर्पण न करने पर कुर्की की नोटिस दी थी। अपराधी के रायबोझा के निकट होने को सूचना मिली। इस पर टीम ने चेराबंदी की। इस पर डमरू ने पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायरिंग की जिसका जवाब देते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डमरू के साथ उसके साथी मुकेश चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

किशौरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दो युवकों को उम्कैट की सजा

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अनुसूचित जाति की एक किशोरी को अगुवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के 11 साल पुराने मामले में शुक्रवार को दो आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है। स्थानीय अदालत ने दोनों आरोपियों आलम पुत्र रसीद और शमशाद पुत्र शम्बीर को उम्कैट की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 1.06 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि इस मामले में अदालत का 11 साल बाद फैसला आया है। इस मामले में सात फरवरी 2013 को पीड़िता के परिजनों ने जिले के अंबेड्हा पीर निवासी इन दोनों युवकों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

भाजपा राज में लोग बिजली पानी को तरसे : अखिलेश

एजेसी
लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में प्रदेश में पानी-बिजली का संकट गहराने लगा है।राज्य सरकार चूँकि हमेशा’ ऑल इज वेल’ के मूड में रहती है इसलिए जनता की परेशानियों से वह कोई वास्ता नहीं रखती है। यादव ने शुक्रवार को कहा कि अभी गर्मी को शुरुआत में ही, ट्रॉंसफार्मर फुंक रहे हैं।लोग घंटो-घंटो तक अंधेरे

में रहने को मजबूर हैं। बिजली के अभाव में नलों से पानी भी नहीं आता है।अधिकांश जगह हैण्डपम्प बेकार पड़े हैं और ट्यूबवेल भी काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बुरी दशा तो बुन्देलखण्ड की है जहां पहाड़ी इलाका होने से पेयजल संकट से लोग त्रस्त हो चले हैं।

केंद्र सरकार हर वर्ग के विकास के लिये कटिबद्ध : अठावले

लखनऊ। केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने शुक्रवार को कहा कि उनका सरकार हर वर्ग और समूह के विकास और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। अठावले ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ,प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ,प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधान मंत्री जन आयोज्य योजना ,आयुष्मन् योजना ,उज्वला योजना ,ओल्ड एज होम वृद्धा आश्रम जैसी विभिन्न समाज के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। ये योजनाएं बिना किसी धार्मिक और जाति के भेदभाव के साथ चलाई हैं। उन्होंने कहा कि देश में 2019 से अब



तक 1658 वृद्ध आश्रम बनाए गए हैं जिनपर 321 करोड़ रुपये की लागत आई जिसमें से 64 वृद्ध आश्रमों का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया और इन पर 16 करोड़ 11 लाख रूपये खर्च हुए ।

इसी प्रकार देशभर में 2019 से अब तक 1672 नशा मुक्ति केंद्र को 345 करोड़ 33 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई जिसमें से 96 केंद्र उत्तर प्रदेश में बनाये गए 21 करोड़ 69 लाख

जौनपुर में अंगूठे का तलोन बनाकर जालसाजी करने वाले दो गिरफ्तार

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस ने अंगूठे का क्लोन बनाकर जालसाजी कर लोगों के बैंक खाते से पैसे उड़ाने वाले 02 ‘हाई टैक’ जालसाजों को गिरफ्तार किया है। जौनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस की स्वाट टीम, सर्विलांस, साइबर सेल एवं थाना चन्दक पुलिस की संयुक्त टीम ने इन बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इनके पास से एक लैपटॉप, स्कैनर, पैसा गिनने की मशीन, डेर सारी बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, एटीएम कार्ड, दस्तावेजों पर लगाने वाले अंगूठे के निशान का तैयार किया हुआ क्लोन एवं नगदी बरामद की है। साहनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस प्रभारी अजय कुमार त्यागी की अगुवाई वाली पुलिस टीम ने देवालासपुर मन्दिर के पास से दो अभियुक्त इफ्तान पुत्र सत्वर अंसारी निवासी ग्राम मढी थाना चन्दक और आशीष कुमार राजभर पुत्र अरविन्द राजभर निवासी बोदरी थाना चन्दक को गिरफ्तार किया। अभियुकों के कब्जे से जालसाजी के इस अन्ठे अफाठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गयी है। पकड़े गये दोनों अभियुकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

मॉरीशस के आर्थिक संबंधों में यूपी निभा सकता है अग्रणी भूमिका : योगी

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि भारत एवं मॉरीशस के आर्थिक संबंधों में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं योगी आदित्यनाथ ने तीन दिवसीय भ्रमण पर काशी आए मारीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द कुमार जगन्नाथ से शुक्रवार को शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मॉरीशस के प्रधानमंत्री का प्रदेशवासियों की तरफ से स्वागत करते हुए उन्हें आंगवस्त्र ओढ़ाया जिस पर भारत एवं मारीशस का मानचित्र उकेरा गया था। मेहमान नेता को श्री काशी विश्वनाथ कांरिडोर का प्रतीक स्मृति चिह्न स्वरूप भी प्रदान किया। योगी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ के साथ बैठक की तथा मॉरीशस और उत्तर प्रदेश के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत एवं मॉरीशस के आर्थिक संबंधों में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा सकता है। मॉरीशस एवं



को आबादी है। यहां के लोगों को आबादी से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। इस क्षेत्र में हैण्डपम्प-ट्यूबवेल दोनों बेकार पड़े हैं।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती से जनजीवन त्रस्त है। कई जगह अघोषित कटौती से लोग अजिज है। बैसे बिजली मिले न मिले हुए बिजली के बिल अवश्य समय से आ जाते हैं। छोटे-मोटे बिजली उपभोक्ताओं को विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही की धमकियां अलग से मिलती है।

ग्रामीण इलाकों में 10 से 12 घंटे भी बिजली का अपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होने से गर्मी में लोग तड़प रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती से जनजीवन त्रस्त है। कई जगह अघोषित कटौती से लोग अजिज है। बैसे बिजली मिले न मिले हुए बिजली के बिल अवश्य समय से आ जाते हैं। छोटे-मोटे बिजली उपभोक्ताओं को विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही की धमकियां अलग से मिलती है।

मथुरा के पर्यटन विकास के लिए होगा प्रयास : वहल

मथुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवाई प्राप्त करने से उत्साहित जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने शुक्रवार को कहा कि मथुरा में मौजूद पर्यटन विकास की संभावनाओं को अब अमली जामा पहनाया जाएगा। सिविल सर्विस डे के मौके पर गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवाई प्राप्त करने से उत्साहित श्री चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किये जाने पर उन्हें नयी ऊर्जा मिली है तथा वे मथुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कुमुम सरोवर, केसी घाट, राजकीय संग्रहालय, मांट विधान सभा क्षेत्र की नौ झील, चुनरी मनोरथ , गहवर वन आदि ऐसे स्थल हैं जो

व्यास गंगा को किया जायेगा पुनर्जीवित : वर्मा

उरई। केन्द्रीय राज्यमंत्री भानु प्रताप वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि ऐतिहासिक नगरी कालपी में व्यास गंगा को ग्रामीणों की मदद से सरकार पुनर्जीवित करेगी।

वर्मा और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने शुक्रवार को कालपी में हवन पूजन कर व्यास गंगा में फावड़ा चलाकर श्रमदान का अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि आजादी की अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व पृथ्वी दिवस के तहत जिले में 1001 जल संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यास गंगा को फिर से शासन व ग्रामीणों के सहयोग से पुनर्जीवित करनी है। उन्होंने ग्रामीणों



से जल संरक्षण की अपील की और कालपी के किरतपुर गांव से अभियान की शुरुआत की।

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर एक अच्छी पहल

बिजली कटौती से शाम का खाना भी अंधेरे में लोग खाने को मजबूर है। सरकार ने केरोसिन के वितरण पर भी रोक लगा रखी है। बिजली की लाइनों में फाल्ट होने से भी समस्याएं है। जर्जर तारों के टूटने से किसानों की खेत में खड़ी और खलिहान में पड़ी गेहूं की फसल आग में स्वाहा हो रही है। बिजली न मिलने से इन्वर्टर तक चार्ज नहीं हो पा रहे हैं।बिजली उपकरण शो पीस बनकर रह गए हैं। कई स्थानों पर

बिजली संकट के चलते किसान तथा अन्य उपभोक्ता प्रदर्शन भी करने लगे हैं।

उन्होने कहा कि लखनऊ में ही बिजली पानी संकट ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। शहर के सबसे पनी आबादी और भीड़ भरे बाजार अमीनाबाद में एक साथ चार ट्रॉंसफार्मर फुंक गए। ट्रॉंसफार्मर की आग आसपास के घरों तक पहुंच गई। 12 हजार से ज्यादा लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए।

मथुरा के पर्यटन विकास के लिए होगा प्रयास : वहल

मथुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवाई प्राप्त करने से उत्साहित जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने शुक्रवार को कहा कि मथुरा में मौजूद पर्यटन विकास की संभावनाओं को अब अमली जामा पहनाया जाएगा। सिविल सर्विस डे के मौके पर गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवाई प्राप्त करने से उत्साहित श्री चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किये जाने पर उन्हें नयी ऊर्जा मिली है तथा वे मथुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कुमुम सरोवर, केसी घाट, राजकीय संग्रहालय, मांट विधान सभा क्षेत्र की नौ झील, चुनरी मनोरथ , गहवर वन आदि ऐसे स्थल हैं जो

पर्यटकों के लिए चुम्बक का काम कर सकते हैं। इन्हें तथा कुछ अन्य को विकसित करना उनकी प्राथमिकता होगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि मथुरा का पर्यटन विकास करने से जहां यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी वहीं यहां के पर्यटन स्थलों का विकास होगा तथा युवकों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे।

उन्होने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2018 में चंदौली के जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने ‘ब्लैक राइस’ के जरिये जिले को नई पहचान दिलाई थी तथा इसके उत्पादन को बढ़ावा देकर वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया था।

योगी सरकार ने पहले महीने में तय किया अगले पांच साल के काम का रोडमैप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान किये जाने वाले कामों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्ययोजना तय कर ली है। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि शासन व प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जालौन में ग्रीष्मकालीन के समय पानी की कमी न रहे और जलाशय भरे रहे लोगों को दूरदराज क्षेत्रों से पानी भरने न जाना पड़े। जिले में 316 तालाब, 81 अमृत सरोवर संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं। यह सभी कार्य मानसून के पहले हो जाएं जिससे तालाब सरोवर सभी भाग और लोगों को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े।

योगी सरकार ने पहले महीने में तय किया अगले पांच साल के काम का रोडमैप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान किये जाने वाले कामों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्ययोजना तय कर ली है।

सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहले महीने में सभी मंत्रियों और विभागों के प्रमुख अधिकारियों को मौजूदगी वाली ‘टीम यूपी’ का गठन कर अगले पांच साल के कामकाज का रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत ‘टीम यूपी’ ने सौ दिन, छह माह और हर साल में चरणबद्ध तरीके से किये जाने वाले काम तय कर लिये हैं।

गौरतलब है कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला महीना आगामी 25 अप्रैल को पूरा हो जायेगा। इस अवधि में सरकार के कामों का ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को उनके विभागों के लक्ष्य हासिल करने के लिए टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने का स्पष्ट संदेश

दिया है। गौरतलब है कि योगी ने 25 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद सभी विभागों से सौ दिन, छह माह, दो साल और पांच साल की कार्ययोजना मांगी थी। कार्ययोजना के आधार पर सभी विभागों को 10 संकेदरों में बांटा कर काम पूरे करने की रणनीति के बारे में मुख्यमंत्री के समक्ष विभागीय प्रस्तुतिकरण किया गया। इस प्रस्तुतिकरण में पिछले पांच साल के कामों को आगे बढ़ाने के लिये अगले पांच साल की तैयारियों को पेश किया गया।

इस दौरान मंत्रियों के सुझावों पर भी विचार विमर्श कर उस पर अमल करने के लिए योगी ने निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपराध, भ्रष्टाचार और माफियागिरी पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सभी विभागों को तकनीकी का अधिकतम उपयोग करने और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने के लिये कहा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लोगों को रोजगार के अधिकतम अवसर मुहैया कराने के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार से लेकर अन्य जरूरी कदम उठाने को कहा है।

खनन माफिया इकबाल पर सहारनपुर पुलिस ने कसा शिकंजा, एससपी बोले जल्द होगी गिरफ्तारी

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के कुख्यात खनन माफिया एवं विधान परिषद के पूर्व सदस्य हाजी इकबाल पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए उसकी जल्द गिरफ्तारी होने के संकेत दिये हैं।

सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आकाश तोमर ने शुक्रवार को बताया कि इकबाल के खिलाफ थाना बेहट और थाना मिर्जापुर में दो मुकदमे दर्ज हैं। पहला मुकदमा बेहट थाने में 80 बीघा जमीन के गलत आवंटन का और दूसरा मुकदमा थाना मिर्जापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है। तोमर ने इकबाल को पुलिस का वारंट अभियुक्त बताते हुए कहा कि उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों लगाई गई हैं और जल्द ही

उसकी गिरफ्तारी हो जायेगी। उन्होंने बताया कि बेहट सर्किल में इकबाल के अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक (देहात) अतुल जांच के नेतृत्व में विशेष शांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस

बीच थाना मिर्जापुर पुलिस ने इकबाल के करीबी सहयोगी और तीन चीनी मिलों समेत कथित रूप से करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति के मालिक नसीम पुत्र अब्दुल गफफार को शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

दस्तावेजी सबूतों के मुताबिक नसीम, यूं तो मजदूर है, लेकिन वह लखीमपुर खीरी, सीतापुर और गोरखपुर की तीन चीनी मिलों में निदेशक भी है। उसके

दोनों बेटे मजदूरी करते हैं। नसीम के नाम गोल्डन एग्रीकल्चर लिमिटेड नामक फर्म भी है, जिसकी गांव शफीपुर, सहारपुर गाढा और फतेहपुर टंडा में 600 बीघा जमीनी है।

तोमर ने बताया कि पुलिस के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक नसीम के नाम 87 बीघा जमीन और बाग है। जबकि उसके बेटे नदीम के नाम 35 बीघा जमीन है। बेहट के क्षेत्राधिकारी मोहम्मद रिजवान के मुताबिक यह सभी संपत्ति हाजी इकबाल की है, जो उसने राजस्व विभाग के दस्तावेजों में नसीम के नाम से दर्ज कराई हुई है। पुलिस ने पिछले दिनों इकबाल के सहयोगी एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख राव लईक को गैंगस्टर एक्ट के तहत

गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तोमर ने बताया कि 80 बीघा जमीन के आवंटन में अनियमितता का मामला बेहट थाने में दर्ज है।इस मामले में राजस्व विभाग के चार अधिकारियों की मिलीभगत भी जांच का विषय है। इनमें से दो अधिकारियों की मौत हो चुकी है और दो अन्य जेल में हैं। मामले के अन्य आरोपियों में हाजी इकबाल वांछित है। गौरतलब है कि केंद्रीय एजेंसियां भी हाजी इकबाल की बेनामी संपत्तियों की जांच कर रही है। पिछले दो दशक से हाजी इकबाल पुलिस-प्रशासन के नशाने पर हैं। यह बात दीगर है कि वह कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। तोमर ने कहा कि वह इकबाल को जल्द गिरफ्तार कर जेल अवश्य भेजेगे।

शार्ट न्युज

रुपया 25 पैसे गिरा

मुंबई। दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की तेजी एवं शेयर बाजार में आई गिरावट के दबाव में आज अंतर्राष्ट्रिक मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे गिरकर 76.42 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। पिछले कारोबारी दिवस रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 76.17 रुपये प्रति डॉलर रहा था। शुरूआती कारोबार में 14 पैसे कमजोर होकर 76.31 रुपये प्रति डॉलर पर खुला रुपया सत्र के दौरान लिवाली के दबाव में 76.51 रुपये प्रति डॉलर के निचले स्तर तक लुढ़का। हालांकि बिकवाली होने से यह 76.19 रुपये प्रति डॉलर के उच्चतम स्तर पर भी पहुंचा। अंत में पिछले दिवस के 76.17 रुपये प्रति डॉलर की तुलना में 25 पैसे गिरकर 76.42 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दरों में आधे प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के संकेत से वैश्विक बाजार में आई गिरावट के दबाव में स्थानीय स्तर पर हुई चौतरफा बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार ने आज पिछले लगातार दो दिन की तेजी गंवा दी तथा सेंसेक्स और निफ्टी एक प्रतिशत से अधिक लुढ़क गए।

चेनई हवाई अड्डे पर 1.95 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त, दो यात्री गिरफ्तार

चेनई। सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों ने चेनई हवाई अड्डे पर विदेश जा रहे नौ यात्रियों को रोक कर उनके पास से 1.95 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा बरामद की है। इनमें से दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। चेनई हवाई-अड्डा सीमा-शुल्क प्रभाग ने शुरुवार को एक अध्यान में कहा कि यह कार्रवाई गुरुवार को की गयी। इनमें से चार यात्री दुबई और पांच कोलंबो जाने वाले थे। उनके शरीर तथा सामान की तलाशी में विभिन्न मूल्य की विदेशी करेंसी बरामद हुई जिसका मूल्य 1.95 करोड़ रुपये आंका गया है। सीमा-शुल्क अधिकारियों ने सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के तहत ये मुद्राएं जब्त कर लीं और उनमें से दो यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया।

आयुष में मिले नौ हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव

नयी दिल्ली। पहले वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन 2022 के दौरान एफएमसीओ, मैडिकल वैल्यू ट्रेवल और फार्मा, जैसी प्रमुख श्रेणियों में 9000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलें। आयुष मंत्रालय ने शुक़रवार को यहां बताया कि गुजरात के गांधीनगर में आयोजित पहले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 में आयुष क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों और विभिन्न अन्य क्षेत्रों के साथ समझौतों किये गये। इसके अलावा सम्मेलन में पूंजी की उपलब्धता, पारस्परिक अनुसंधान और विश्व स्तर पर आयुष की पहुंच पर चर्चा की गयी। सम्मेलन में एफएमसीजी में 7000 करोड़ रुपए, मैडिकल वैल्यू ट्रैवल में लगभग 1000 करोड़, फार्मा सेक्टर से लगभग 345 करोड़, किसान और कृषि श्रेणी के लिए 300 करोड़ और टेक्नोलॉजी और डायग्नोस्टिक श्रेणी में लगभग 60 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में पांच देशों के साथ आयुष के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते किये गये। इसके अलावा देश के विभिन्न प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के बीच कुल 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के किसान समूहों और उद्योग के बीच 50 से अधिक समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया। इनमें 6300 से अधिक किसान शामिल होंगे और इन समझौतों के माध्यम से 4.5 हजार टन उत्पादन होने की उम्मीद है।

खाद्य तेलों में तेजी बरकरार

नयी दिल्ली। विदेशी बाजारों में आई तेजी को बंदौलत आज दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेलों में उखल बरकरार रहा तथा गुड़ु और चीनी भी महंगी हो गई वहीं अन्य जिंसों के भाव पड़े रहे। तेल-तिलहन: वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुक्सा मलेशिया डेविलेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल अमेंड वायदा 61 रिंगिट चढ़कर 6869 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया। इसी तरह अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.78 सेंट की तेजी लेकर 82.34 सेंट प्रति पींड बोला गया। इस दौरान स्थानीय स्तर पर सूरजमुखी तेल 294 रुपये, पाम ऑयल 292 रुपये, वनस्पति तेल 292 रुपये और मूंगफली तेल 146 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हो गया। वहीं, सरसों तेल और सोया रिफाईंड के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। गुड़ु-चीनी : मीठे के बाजार में तेजी रही। इस दौरान चीनी 50 रुपये और गुड़ु 100 रुपये प्रति क्विंटल चढ़ गया। दाल-दलहन : दाल-दलहन के बाजार में मुंश्या खड़ी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमरन रास्ते ने गुरुवार को यहां यूनोवार्ता से कहा, अभूतपूर्व भू-राजनीतिक उथलपुथल के कारण कठिन दौर से गुजर रहे जिंस बाजार में वित्त वर्ष 2021-22 में हमारा प्रदर्शन दिखाता है कि बाजार में काम करने वाले विशेषकर कृषि जिंसों के अनुबंधों के सौदों में भाग लिया। यह उतार-चढ़ाव के दौर में जोखिम प्रबंधन के प्रति यह उनकी सतर्कता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में वायदा और विकल्प के अनुबंधों के सौदों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष के दौरान मासिक ओपन इंटेरेस्ट (निपटान के लिए बकाया सौदे) औसतन 3,554 करोड़ रुपये तक रहे, यह इससे पिछले साल के 2,695 करोड़ रुपये के मासिक ओपन इंटेरेस्ट की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। ओपन इंटेरेस्ट का ऊंचा होना बाजार प्रतिभागियों की अच्छी गुणवत्ता और गंभीरता का पैमाना माना जाता है। एनसीडीईएक्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 कृषि डेवेलपेंट्स प्रणाली के लिए चुनौती भरा वर्ष रहा क्योंकि इसमें कुछ प्रमुख जिंस डेवरेटिव्स अनुबंधों पर रोक लगा दी गई।

एनसीडीईएक्स पर 2021-22 में औसत दैनिक कारोबार 47 प्रतिशत बढ़कर हुआ 1,858 करोड़ रुपये

मुंबई। भारत के अग्रणी ऑनलाइन कृषि जिंस एक्सचेंज नेशनल कर्मांडिटी एंड डेवरेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) में 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2021-22 में औसत दैनिक व्यापार 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,857 करोड़ रुपये रहा। यह औसत वित्त वर्ष 2020-21 में 1,261 करोड़ रुपये और कोचीन महामारी के लिए वर्ष 2019-20 में 1,794 करोड़ रुपये था। एनसीडीईएक्स ने गुरुवार को बताया कि सोया, सरसों और चना जैसी जिंसों के वायदा कारोबार पर सरकार द्वारा लगायी गयी रोक के बावजूद उसके मंच पर दैनिक लेनदेन में उछाल आया है। एनसीडीईएक्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमरन रास्ते ने गुरुवार को यहां यूनोवार्ता से कहा, अभूतपूर्व भू-राजनीतिक उथलपुथल के कारण कठिन दौर से गुजर रहे जिंस बाजार में वित्त वर्ष 2021-22 में हमारा प्रदर्शन दिखाता है कि बाजार में काम करने वाले विशेषकर कृषि जिंसों के अनुबंधों के सौदों में भाग लिया। यह उतार-चढ़ाव के दौर में जोखिम प्रबंधन के प्रति यह उनकी सतर्कता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में वायदा और विकल्प के अनुबंधों के सौदों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष के दौरान मासिक ओपन इंटेरेस्ट (निपटान के लिए बकाया सौदे) औसतन 3,554 करोड़ रुपये तक रहे, यह इससे पिछले साल के 2,695 करोड़ रुपये के मासिक ओपन इंटेरेस्ट की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। ओपन इंटेरेस्ट का ऊंचा होना बाजार प्रतिभागियों की अच्छी गुणवत्ता और गंभीरता का पैमाना माना जाता है। एनसीडीईएक्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 कृषि डेवरेटिव्स प्रणाली के लिए चुनौती भरा वर्ष रहा क्योंकि इसमें कुछ प्रमुख जिंस डेवरेटिव्स अनुबंधों पर रोक लगा दी गई।

पवन हंस की बिक्री पर सरकार का जोर, अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को मंथन

नई दिल्ली। हेलीकॉप्टर सेवने देने वाली कंपनी पवन हंस लिमिटेड की बिक्री को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सचिव राजीव गोबा का अध्यक्षता में अधिकारियों का एक समूह शनिवार को बैठक करने वाला है। आपको बता दें कि पवन हंस की बिक्री के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और ज़िंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने भी दिलचस्पी दिखाई है। किंतु नै है सरकार की हिस्सेदारी: सरकार पवन हंस में अपनी 51 फीसदी की समूची हिस्सेदारी बेच रही है। बाकी 49 फीसदी हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के पास है और वह भी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। 1985 में स्थापना : आपको बता दें कि पवन हंस की स्थापना 1985 में की गई थी और इसके पास 40 से अधिक हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। इसमें 900 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं जिनमें से आधे से भी कम कर्मचारी स्थायी हैं। यह कंपनी ओएनजीसी की अन्वेषण गतिविधियों के लिए और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर सेवेएं प्रदान करती है। कई बार हुई कोशिश : सरकार ने पवन हंस में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए 2019 में निविदाएं आमंत्रित की थीं। हालांकि जब ओएनजीसी ने अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया तो सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए। 2019 में कंपनी को बेचने का एक और प्रयास हुआ था लेकिन तब निवेशकों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब एक बार फिर कोशिश की जा रही है।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार करार इसी वर्ष सम्पन्न करने का मोदी, जॉनसन का निर्णय

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर व्यापार एवं निवेश संबंधों के विस्तार के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की बात-चीत इसी वर्ष सम्पन्न कराने का निर्णय किया है।

मोदी ने ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री जॉनसन की दो दिवसीय भारत यात्रा के अंतिम दिन शुक्रवार को यहां प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा, 'हमने इस साल के अंत तक एफटीए की बातचीत के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है।' जॉनसन ने कहा कि दोनों देश एफटीए पर इस वर्ष दिवाली तक हस्ताक्षर

करने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के उद्यमियों के बीच एक अरब पाउंड के निवेश और व्यापार के नए समझौते हुए हैं।

मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के विषय पर दोनों देशों के अधिकारियों के दल काम कर रहे हैं। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार के समझौतों को सम्पन्न किया है। उन्होंने कहा, हम उसी गति, उसी प्रतिबद्धता के साथ, हम ब्रिटेन के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, 'व्यापार वार्ता का अगला चक्र अगले सप्ताह यहाँ शुरू होने जा रहा है। हम अपने वार्ताकारों को कह रहे हैं कि यह काम दिवाली तक हो जाना चाहिए...इससे इस दशक के अंत तक हमारा व्यापार और निवेश इस दशक के अंत तक दो

शक्कर में गिरावट, खाद्य तेलों में गिरावट, दलहनो में मंदी, दाल- चावल सामान्य

इंदौर। सियागंज किराना बाजार में शक्कर में मांग सुस्ती नरमी दर्ज की गई। खाद्य तेल मन्दे बताए गए। आज पाम तेल घटकर बिका। दलहनो में मसूर सस्ती हुई। दालों में ग्राहकी बताई गई। चावल में उठाव रहा।

किराना बाजार

शक्कर में खरीदी से मजबूती रही। आज शक्कर में कामकाज 3620 से 3660 रुपये के स्तर पर चला। शक्कर में 08 गाड़ी आवक हुई। नारियल में लिवाली बनी रही। खोपरा गोला तथा हल्दी में उठाव बताया गया। साबुदाना में खरीदी साधारण रही।

तेल -तिलहन

खाद्य तेल में गिरावट दर्ज की गई। आज पाम तेल नरम बताया गया। तिलहन में सोयाबीन में प्लांटो की लिवाली रही। सरसों में कामकाज बना रहा।

दाल-दलहन

स्थानीय संयोगितागंज अनाज मंडी में दलहन नरमी लित रहे। मसूर घटकर बिकी। आज दालों में लिवाली बताई गई। इससे भाव बने रही। चावल में पृष्टपरख सुधार लिए रही।

शेयर बाजार ने गंवाई तेजी

जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.23 प्रतिशत की मामूली तेजी पर रहा।

विदेशी बाजारों की गिरावट का असर घरेलू शेयर बाजार पर रहा। इस दौरान बीएसई के सभी 19 समूह उतर गए। वित्त 1.70, हेल्थकेयर 1.57, आईटी 0.63, बैंकिंग 2.19, कैपिटल गुड्स 0.99, थातु 2.17, तेल एवं गैस 0.74, रियल्टी 1.37 और टेक समूह के शेयर 0.68 प्रतिशत लुढ़क गए। सेंसेक्स की शुरुआत कमजोर रही और यह 380 अंक की बड़ी गिरावट लेकर 57,531.95 अंक पर खुला। लिवाली होने से यह दोपहर से पहले 57,689.86 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा लेकिन बिकवाली के दबाव में कारोबार के अंतिम चरण में 57,134.72 अंक के निचले स्तर तक उतर गया। अंत में पिछले दिवस के 57,911.68 अंक के मुकाबले 1.23 प्रतिशत टूटकर 57,197.15 अंक पर रहा।

इसी तरह निफ्टी भी 150 अंक गिरकर 17,242.75 अंक पर खुला और सत्र के दौरान 17,315.30 अंक के उच्चतम जबकि 17,149.20 अंक के निचले स्तर पर रहा। अंत में पिछले सत्र के 17,392.60 अंक की तुलना में 1.27 प्रतिशत उतरकर 17,171.95 अंक पर आ गया। इस दौरान सेंसेक्स की महिंदा एंड महिंदा और मारुति समेत छह कंपनियों की 0.98 प्रतिशत तक की बढ़त को छोड़कर शेष 24 कंपनियां गिरावट पर रहें। नुकसान उठाने वालों में एसबीआई 3.08, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.06, इंफोसिस 2.37, आईसीआईसीआई बैंक 1.95, टाटा स्टील 1.88, एनटीपीसी 1.54, एचडीएफसी 1.37, एलटी 1.18, एचडीएफसी 1.09, रिलायंस 0.85, टीसीएस 0.50 और विप्रो 0.25 प्रतिशत जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल रहें।



गुना हो सकता है। मोदी ने कहा कि हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमती व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, (उत्पादों के) डिजाइन और विकास, सभी क्षेत्रों में ब्रिटेन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का हम स्वागत करते हैं। मोदी ने कहा

दाल

चना दाल 6150 से 6650, तुअर दाल सवा नंबर 8400 से 8500, तुअर दाल फूल 8600 से 8800, तुअर दाल नई 9100 से 9800, आयातित तुअर दाल 8200 से 8300, मसूर दाल 7950 से 8250, मूंग दाल 8700 से 9000, मूंग मोगर 9300 से 9600, उड़द दाल 8400 से 8700, उड़द मोगर 9400 से 9800 रुपये प्रति क्विंटल।

चावल-पोहा

बासमती 10000 से 11000, तिबार 8000 से 8500, दुबार 7000 से 7500, मिनी दुबार 6500 से 7000, मोगरा 3500 से 4500, बासमती सैला 6500 से 9000, कालीमूंड 7000 से 7500, राजभोग 6400 से 6500, दूबराज 3500 से 4500, परमल 2500 से 2650, हंसा सैला 2450 से 2650, हंसा सफेद 2350 से 2450, पोहा 3700 से 4100 रुपये प्रति क्विंटल।

रवा-मैदा

रवा 1380 से 1390, मैदा 1340 से 1350, आटा 1300 से 1310, चना बेसन 3300 से 3325 रुपये प्रति 50 किलोग्राम।

भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वित्तीय कार्रवाई बल की प्राथमिकताओं का अनुमोदन किया

नयी दिल्ली/वाशिंगटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धन शोधन, आतंकवाद तथा जन-संहारक हथियारों के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए बने अंतरराष्ट्रीय गठबंधन-वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) को भारत की ओर से सभी आवश्यकता संसाधन और सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

सीतारमण ने इस गठबंधन में शामिल देशों के वित्त मंत्रियों वाशिंगटन में हुयी बैठक में गुरुवार को हिस्सा लिया। विश्व बैंक-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की औद्योजित इस बैठक में सीतारमण ने कहा कि भारत एफएटीएफ की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन करता है।

नयी दिल्ली में वित्त मंत्रायल द्वारा जारी एक वृत्तिज्ञप्ति के अनुसार वित्त मंत्री ने वाशिंगटन में एफएटीएफ के मंत्रियों

द्विपक्षीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी वार्ता की स्थापना का मैं ह्दय से स्वागत करता हूँ।

मोदी ने बताया कि मेड इन इंडिया नवप्रवर्तनों के हस्तांतरण और उनको बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए दोनों देश मिल कर 10 करोड़ डॉलर का वित्तपोषण करेंगे। इससे स्वास्थ्य विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के प्रयासों में मदद मिलेगी। मोदी ने कहा कि यह सहयोग हमारे स्टार्टअप और विद्युत, लघु और मझोले क्षेत्र के उद्यमों को नए बाजार तलाशने, और अपने नवप्रवर्तन –नयी इजाजत को विश्वस्तर पर ले जोन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

जॉनसन ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के उद्यमियों ने एक अरब पाउंड के नये निवेश और निर्यात के करार किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत-ब्रिटेन भागीदारी से दोनों देशों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आर्थिक वृद्धि

हो रही है।

जॉनसन ने मोदी को अपना खास दोस्त बताया और कहा कि उन्होंने श्री मोदी के साथ रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सहयोग पर बातचीत की है।

यह थल, जल, नभ, अंतरिक्ष और इंटरनेट जगत इन पांच क्षेत्रों के लिए होगा। उन्होंने बताया कि इसमें भारत के साथ मिल कर नए लड़ाकू विमान के विकास की बात भी होगी और समुद्र में खतरों की पहचान और उसका मुकाबला करने की प्रौद्योगिकी की बात भी होगी।

भारत इस समय ब्रिटेन का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार 21.5 अरब पाउंड से अधिक है।

जॉनसन ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत गुरुवार को अहमदाबाद से की और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका नयी दिल्ली में शुक्रवार को औपचारिक रूप से स्वागत किया।

‘रूस पर पाबंदी में भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातकों को दिख रही है संभावना’

नयी दिल्ली। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवंधन परिषद (ईंजीपीसी) के अध्यक्ष महेशा देसाई ने शुक़वार को कहा कि यूक्रेन-रूस लड़ाई से वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार को बड़ा खतरा है लेकिन रूस पर विकसीत देशों के प्रतिबंधों से इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात करने वाली भारतीयों इकाइयों के लिए विश्व बाजार में रूस की जगह लेने का अच्छा अवसर साबित हो सकता है।

देसाई ने कहा कि वर्ष 2021-22 भारत के इंजीनियरिंग निर्यात के लिए बहुत अच्छा रहा लेकिन इस बीच कई ऐसे घरेलू और वैश्विक हालात बने हैं जो निर्यात के वर्तमान रुझान के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, इस समय रूस-यूक्रेन युद्ध सबसे संगीन मसला है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में खलल पड़ सकता है। चीन में कोविड के मामलों में उखल वैश्विक आपूर्ति शृंखला के लिए बड़ी चिंता का विषय है।अमेरिका में मुद्रास्फीति का दबाव और चीन में अचल संपत्तियों के बाजार में अस्थिरता से व्यापार में वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भारत में इस्पात के बढ़ते माह और वित्तीय समस्याओं के चलते आने वाले महीनों में निर्यात में अड़भुन में आ सकती हैं।

श्री देसाई ने कहा कि मार्च 2022 में 11 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात हुआ। यह अबतक का सबसे ऊंचा

मासिक निर्यात है। निर्यात के इस रुझान को बनाए रखने के लिए जरूरी उपाय करने की जरूरत है।

मार्च 2022 में इंजीनियरिंग निर्यात 11.13 अरब डॉलर का रहा जो मार्च 2021 के 9.29 अरब डॉलर की तुलना में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-मार्च (2021-22) में इंजीनियरिंग निर्यात कुल मिलाकर 112.10 अरब डॉलर रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 46.12 प्रतिशत अधिक है। देश से वाणिज्यिक उत्पादों के कुल निर्यात में इंजीनियरिंग उत्पादों का हिस्सा 26.7 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 में 34 में से 32 इंजीनियरिंग उत्पादों में 2020-21 के मुकाबले वृद्धि दर्ज की गयी।

मार्च 2022 में तांबा तथा तांबे के उत्पाद, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर, प्राथमिक माइक्रा और इसके उत्पाद, जहाज, नौकाएं और तैरने वाले ढांचे तथा टिन एवं टिन से बने वस्तुओं के निर्यात में एक साल पहले की तुलना में गिरावट दर्ज की गयी है।

इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में सरकार द्वारा निर्धारित 107.34 अरब डॉलर के लक्ष्य से ऊपर रहा। भारत के इंजीनियरिंग माल के प्रमुख 25 बाजारों में अमेरिका को मार्च 2022 में निर्यात 61 प्रतिशत बढ़कर 2.02 अरब डॉलर रहा, एक साल पहले इसी माह वहां 1.26 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था।



की बैठक में कहा कि भारत धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और जन-संहारक हथियारों के लिए धन की उपलब्धता को रोकने में एक वैश्विक गठबंधन के रूप में एफएटीएफ के प्रयासों के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता देने को प्रतिबद्ध है। एफएटीएफ ने वर्ष 2022-24 के लिए अपना नेटवर्क मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वाभिमत्व के वास्तविक लाभार्थी की पहचान तथा उपराधियों से संपर्क की वसूली अधिक कारगर क्षमता बढ़ाने के काम को प्राथमिकता पर रखा है।

भारत की वृद्धि दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बनी रहेगी

वाशिंगटन/नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊभरती नयी चुनौतियों को देखते हुए, विश्व अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर में कुछ गिरावट आ सकती है लेकिन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की आर्थिक वृद्धि की दर सबसे तेज रहेगी।

सीतारमण यहां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्त समिति की पूर्ण बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने ऊभरती चुनौतियों की पृष्ठभूमि में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कुछ गिरावट आ सकती है। सीतारमण ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताजा अनुमान में 2022-23 में भारत की वृद्धि 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊंची वृद्धि दर है। उन्होंने कहा कि भारत ने महत्वपूर्ण बुनियादी सुधार कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इनका उद्देश्य उत्पादकता और रोजगार को प्रोत्साहित करना है। गौरतलब है कि मुद्रा कोष ने इसी सप्ताह विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य के विषय में जारी अपनी ताजा बर्लूड

को बताया कि भारत सरकार वित्तीय समावेश के प्रतिबद्ध है और देश में विकसित विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी स्मार्टफोन, सैटेलाइट और लघु एवं मझोली इकाइयों की वित्तीय मदद पर ध्यान दे रही है।

मास्टरकार्ड के अधिकारी ने बताया कि उनकी कंपनी भारत में एक विशाल डाटा केंद्र स्थापित कर चुकी है और अब वह छोटी उद्यमों के प्रशिक्षण और डिजिटलीकरण पर ध्यान दे रही है।

डेलॉयट वैश्विक के सीईओ पुनित रेंजेन ने भी श्रीमती सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी भारत के कोयंबटूर और धुवने जूर जैसे छोटे शहरों में भी अपना कार्यक्षेत्र फैला रही है।

डेलॉयट भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की कार्रवाई में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है।



आउटलुक रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर के अनुमान को जनवरी के अनुपे 9 प्रतिशत के अनुमान की तुलना में घटाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया। सीतारमण ने कोविड महामारी के बाद के दौर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका बढ़ाए जाने पर बल दिया। उन्होंने मुद्रा कोष में कौटा की 16वीं सामान्य सभाका को समय से पूरा किए जाने पर बल दिया। ताकि ऊभरती

शार्ट न्यूज

अंशु और राधिका ने जीते रजत

नयी दिल्ली। भारत की महिला पहलवानों ने उलनबाटार में चल रही सीनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में शुक्रवार को दो रजत और एक कांस्य पदक जीत लिया। भारत के टूनामेंट में अब तक कुल 10 पदक हो गये हैं जिसमें दो रजत और आठ कांस्य पदक शामिल हैं। अंशु मलिक ने 53 किग्रा और राधिका ने 65 किग्रा में रजत जीते जबकि मनोषा ने 62 किग्रा में कांस्य जीता। भारत को अभी तक स्वर्ण नहीं मिला है। पुरुष फ्री स्टाइल के मुकाबले शनिवार से शुरू होंगे जिसमें ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिथा और बजरंग से स्वर्ण की उम्मीद है।

केरला के खिलाफ चेन्नइयन की अग्नि परीक्षा, आरएफवाईसी को पहली जीत की तलाश

पणजी। रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग (आरएफडीएल) के पहले संस्करण में शनिवार को नागोंआ मैदान पर चेन्नइयन एफसी का सामना केरला ब्लास्टर्स से होना है। उल्लासित चेन्नइयन का इस बार का लक्ष्य केरला का विजय रथ रोकना होगा। इसी दिन होने वाले एक अन्य मैच में रिलायंस फाउंडेशन चंग चैंप्स (आरएफवाईसी) का सामना मुम्बई सिटी एफसी से होगा। दोनों टीमों को इस टूर्नामेंट में पहली जीत का इंतजार है। चेन्नइयन ने अपने पिछले मैच में जमशेदपुर एफसी के खिलाफ अच्छा खेल दिखाया था और 2-2 से ड्रा खेला था। हालांकि इस टीम को अंतिम फिनाट में गोल खाने के कारण अंक बांटना पड़ा था। यह बात उसे बहुत खली होगी कि उसके हाथ से तीन अंक निकल गए।चेन्नइयन की टीम लगातार सुधार कर रही है लेकिन क्या उसने वाकई चैम्पियन बनने के लायक सुधार किया है या नहीं, यह केरला के साथ होने वाले उसके मुकाबले के बाद ही पता चल सकेगा क्योंकि इस मैच में उसकी असल परीक्षा होने वाली है। साहिल पाशा और जॉनसन जोसफ इस मैच में अच्छा खेले और अब वे इस आगे भी जारी रखने का प्रयास करेंगे लेकिन बिजोय वर्गीज के रहते उन्हें काफी मेहनत करनी होगी। बिजोय हीरो आईएसएल में केरला की सीनियर टीम का हिस्सा थे। उनके अलावा कई और खिलाड़ी हैं, जो चेन्नइयन को मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।

मनु गन्दस ने जीता दिल्ली-एनसीआर ओपन

नोयडा। गुरग्राम के मनु गन्दस (65-69–67–68)ने 40 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वाले दिल्ली–एनसीआर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में शुक्रवार को चौथे और अंतिम राउंड के बाद चार शॉट के अंतर से खिताब जीत लिया। मनु तीन राउंड के बाद नोयडा के अमरदीप मालिक के साथ संयुक्त बढ़त पर थे लेकिन चौथे राउंड के बाद मनु ने सत्र का दूसरा खिताब जीत लिया। 126 वर्षीय मनु को इस जीत से 6,46,600 रुपये की पुरस्कार राशि मिली और वह पीजीटीआई आईर ऑफ मैनेजट में पांचवें से तीसरे स्थान पर पहुंच गए।उनका कुल स्कोर 19 अंडर 269 रहा।बांग्लादेश के मोहम्मद जमाल हुसैन (66–70–69–68) चार राउंड में 15–अंडर 273 के स्कोर के साथ लगातार दूसरे सप्ताह दूसरे स्थान पर रहे।

टी 20 प्रारूप त्रूर साबित हो सकता है : सचिन

मुंबई। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर मेटॉर के तौर पर टीम के डााआउट में मौजूद रहते हैं। सचिन ने कहा कि पांच खिताब जीतने के बाद मुंबई से उम्मीदें बहुत रहती हैं और इससे हमेशा रोहित शर्मा की टीम पर दबाव रहता है। तेंदुलकर ने स्टार स्पॉटर्स के साथ मैच के दौरान बातचीत में कहा, चलिए पहले ये समझते हैं कि इस प्रारूप में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने इस सीजन मुंबई की तरह अनुभव नहीं किया हो। यह प्रारूप त्रूर साबित हो सकता है। अगर अहम मुमेंट आपके हक में नहीं जाते हैं तो आप दो या तीन रन या आखिरी गेंद पर मैच हार सकते हो। सचिन ने कहा,ऐसी कम रनों की हार से बचने के लिए ही हमें इन मुमेंट को जीतना होगा, यही वह अहम लम्हें हैं जो हमें जीतने होंगे। मैं एक और प्वाइंट साफ करना चाहता हूं इस चुनौतीपूर्ण सीजन में लड़के जाते हैं और अभ्यास सत्रों में कड़ी मेहनत करते हैं। यह युवा टीम है और उन्हें व्यवस्थित होने में समय लग सकता है, लेकिन यह वह समय नहीं जब आपको एक टीम की तरह से एकजुट होना होगा और निष्कर्ष निकालना होगा।

छोटे गुटों में बंटना शुरू हो गई है मुंबई इंडियंस

मुंबई। मुंबई इंडियंस के साथ दो सीज़न तक खेले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज़ क्रिस लिन ने कहा कि मुंबई कैंप में उन्होंने गुटों की दस्तक शुरू होना महसूस किया था। 2020 और 2021 में केवल एक आईपीएल मैच ही खेलने वाले लिन ने कहा कि मुंबई 11 की टीम की जगह 11 व्यक्तिगत दिख रही थी। लिन आस्ट्रीएल 2022 में क्रिकइंडो के एक्सपर्ट प्नामिस्ट हैं और उन्होंने यह बयान तब दिया जब रोहित शर्मा की टीम आईपीएल इतिहास में लगातार सात मैच हारने वाली पहली टीम बनी है। लिन ने क्रिकइंडो के टी20 टाइम आउट में कहा, जब आप तालिका में बिल्कुल नीचे होते हो तो कप्तान की ही तरह कौरन पोलाई भी आमतौर पर डीप मिडिऑन या मिडऑफ से मदद करने आपको शांत करने आते हैं। हमने यह अभी तक मुंबई के साथ नहीं देखा क्योंकि वे अब छोटे गुटों में बंटना शुरू हो गए हैं और यह एक अच्छा संकेत नहीं है। मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम अभी अच्छी जगह नहीं होगी। एक भी मैच नहीं खेले बिना लिन मुंबई की उस टीम का हिस्सा रहे जिसने 2020 में आईपीएल जीता था। लिन ने कहा कि उस समय का माहौल इस समय से बिल्कुल अलग है। जब वे दो साल पहले टूर्नामेंट जीते थे, तब की तुलना में अब बिल्कुल उलटा है। तब वे हमेशा बात करते रहते थे – कैसे हम बेहतर हो सकते हैं, कैसे हम इस ओवर में बेहतर कर सकते हैं।

टायसन ने परेशान करने वाले यात्री को पीट डाला

सैन फासिस्को। अमेरिका के पूर्व लीजेंड मुक्केबाज माइक टायसन ने उन्हें फ्लाइट के दौरान परेशान करने वाले और उन पर बौतल फेंकने वाले यात्री को पीट डाला। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने जा रहे विमान में सवार एक यात्री को कई मुक्के मारे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, वो शख्स बार–बार टायसन से बात करने की कोशिश कर रहा था, जिससे टायसन परेशान हो गए और उन्होंने उस यात्री को मुक्के मारने शुरू कर दिए। सेल फोन के फट्टेज में टायसन को अपनी सीट के पीछे झुकते हुए और उस शख्स को मुक्के मारते हुए दिखाया गया है। बुधवार को हुई इस घटना के वीडियो में वे भी देखा जा सकता है कि टायसन ने जिस शख्स को मुक्के मारे थे उसे चोट के निशान आए हैं और खून भी बहर रहा था। आयरन माइक शुरू में यात्री के साथ सही थे लेकिन जब उसने बार–बार टायसन से बात करने की कोशिश की तो वो चिढ़ गए और उसे मुक्के मारने शुरू कर दिए। वीडियो में दिखाया गया है कि 55 साल के माइक टायसन आगे की सीट पर बैठे होते हैं। उनके पीछा बैठे शख्स पहले तो उनसे बात करता है। इसके बाद वो बार–बार उनके बारे में बात करते हुए दिखाई देता है। वीडियो देखकर पता लग रहा है कि वीडियो उस शख्स का दोस्त बना रहा था क्योंकि वो बार–बार टायसन की तरफ देखकर कैमरे की ओर कुछ बोले रहा था। कुछ देर बाद टायसन ने उसे शांत होने को कहा, लेकिन फिर भी वो नहीं चुप हुआ, तो टायसन को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे मुक्के मारना शुरू कर दिया।

हमें पता था कि धोनी आखिरी गेंद खेले तो वह निश्चित मैच जिता देंगे : जडेजा

मुंबई। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रवींद्र जाडेजा ने मुम्बई पर तीन विकेट से जीत दर्ज करने के बाद कहा, हम बहुत टेंशन में थे जैसे मैच जा रहा था लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते थे कि बेहतरीन फीनिशर अभी वहां पर हैं और अगर वह आखिरी गेंद खेले तो वह निश्चित मैच जिता देंगे। धोनी ने दुनिया को दिखाया कि वह अभी भी यहां हैं और मैच खत्म कर सकते हैं। धोनी के साथ बल्लेबाजी करने वाले ड्वेन प्रिटोरियस ने मैच के बाद कहा, शानदार अनुभव।

बेंगलुरु के सामने होगी हैदराबाद की कड़ी चुनौती

मुम्बई। चोटी की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और जीत की राह पर लौट चुकी सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शनिवार को ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मुकाबले में कड़ी टक्कर होने की पूरी उम्मीद है। बेंगलुरु सात मैचों में पांच मैच जीतकर और दस अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है जबकि हैदराबाद छह मैचों में चार जीत और आठ अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। हैदराबाद इस मुकाबले को जीतकर खुद को टॉप तीन में पहुंचाना चाहेगी। बेंगलुरु के ग्लेन मैक्सवेल इस सीजन

अच्छी लय में दिखे हैं। उन्होंने अब तक 193.10 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए हैं। पिछले सीजन उन्होंने हैदराबाद के खर्लाफ़ 40(25) और 59(41) का स्कोर किया था। आईपीएल 2021 में वह मध्य ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे। उन्होंने 13 पारियों में 135.24 के स्ट्राइक रेट से 353 रन बनाए थे।

दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी इस सीजन हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। उन्होंने छह मैचों में 173.72 के स्ट्राइक रेट से 205



रन बनाए हैं। राहुल आईपीएल में एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अब तक भारत के लिए डेब्यू नहीं किया है। उन्होंने बेंगलुरु के खर्लाफ़ नौ पारियों

में 60.67 के औसत से 244 रन बनाए हैं।

बेंगलुरु के दिनेश कार्तिक ने इस आईपीएल में बेहतरीन फिनिशिंग

गुजरात को कोलकाता को करना होगा काबू

मुंबई। आईपीएल तालिका में नंबर एक स्थान पर चल रही गुजरात टाइटंस को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए शनिवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को काबू में रखना होगा।

हार्दिक पांड्या को नंबर चार पर बल्लेबाज़ी कराने का गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट का निर्णय आईपीएल के पहले सीजन में गुजरात के शीर्ष पर बने रहने का प्रमुख कारणों में से एक है। हार्दिक पांच मुकाबलों में 228 रन बनाकर गुजरात के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ भी हैं। गेंदबाज़ी में पांड्या ने अब तक चार विकेट झटकें हैं, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के खर्लाफ़ उनका खर्कालाजवाब है। कोलकाता के खर्लाफ़ उन्होंने नौ मुकाबलों में 11 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रति ओवर 6.91 की इकॉनमी से रन खर्च किए हैं।

गुरात के डेविड मिलर ने चेन्नई सुपर किंग्स के खर्लाफ़ पिछले मुकाबले में 51 गेंदों में 94 रनों की आतिशी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। मिलर टी20 में 2021



के बाद से डैथ ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने इस अवधि में डैथ ओवरों के दौरान 228 गेंदों का सामना करते हुए 191.66 के स्ट्राइक रेट से 437 रन बनाए हैं।

कोलकाता की उम्मीदों का दारोमदार उसके कप्तान श्रेयस अय्यर और आलराउंडर आंद्रे रसेल की बाजीगरी पर निर्भर करेगा।

अय्यर इस सीजन में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। उन्होंने 148.42 के स्ट्राइक रेट से अब तक 236 रन बनाए हैं। वह आईपीएल के इतिहास में राशिद खान के खर्लाफ़ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ भी हैं। अय्यर ने राशिद की 77 गेंदों पर 83 रन बनाए हैं,

जबकि राशिद ने उन्हें दो बार आउट किया है।

आंद्रे रसेल ने इस सत्र में हरफनमौला प्रदर्शन दिखाया है। रसेल ने इस टूर्नामेंट में अब तक 177.22 के स्ट्राइक रेट से 179 रन बनाने के साथ–साथ सात मुकाबलों में छह विकेट भी अपने नाम किए हैं।

गुजरात के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन पहली बार अपनी पुरानी पूर्रंचाड़जी कोलकाता का सामना करेंगे। वह इस सीजन में गुजरात के लिए मोहम्मद शमी के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं। दोनों ने आठ–आठ विकेट झटकें हैं। राजस्थान के खर्लाफ़ खेले मुकाबले में फर्ग्युसन ने 23 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए थे।

इंडिया आउट कैंपेन पर मालदीव सरकार ने लगाया बैन, विपक्षी दल जाएगा अदालत

नई दिल्ली। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी के विरोध में विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया आउट अभियान को रोकने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने फैसला किया था कि इंडिया आउट अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा है कि परिषद ने फैसला किया कि एक विशिष्ट देश को लक्षित करने वाले राजनीतिक अभियानों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है।

अदालत का रुख करेगी विपक्षी दल

मालदीव सरकार के इस कदम के बाद विपक्षी पार्टियां अदालत का रुख कर सकती हैं. विपक्षी नेता अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह द्वारा



जारी किए गए फरमान को खारिज करने के लिए अदालत की ओर जा रहे हैं जिसमें इंडिया आउट अभियान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि आदेश को अदालत में चुनौती देने के लिए विपक्षी दल कानूनी टीा के साथ बातचीत कर रही है. इसे लेकर जल्द ही एक फैसला किया जाएगा। राष्ट्रपति सोलिह द्वारा साइन किए गए निर्देश में कहा गया था कि यह अभियान ने मालदीव और भारत के

के द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं, जबकि देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को भी खतरा हो सकता है। राष्ट्रपति ने संबंधित अधिकारियों को आंदोलन और उसकी गतिविधियों को रोकने के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है।

वया है इंडिया आउट कैंपेन?

पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम के नेतृत्व में विपक्ष मालदीव में तैनात भारतीय सैन्यकर्मियों को बाहर निकालने के लिए इंडिया आउट अभियान चला रहा है। हाल के महीनों में इस आंदोलन ने गति पकड़ी है। सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि भारत से मालदीव को कोई खतरा नहीं है, विपक्ष का दावा है कि भारत मालदीव पर अनुचित प्रभाव डालता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की स्वतंत्रता को खतरा है।

खालिस्तान मसले पर ब्रिटेन का बड़ा कदम, अलग से बनाया टास्क फोर्स

नई दिल्ली। भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने खालिस्तान अलगाववादियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। ब्रिटेन में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा बहुत मजबूत दृष्टिकोण है कि हम दूसरे देशों को धमकी देने वाले चरमपंथी समूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, भारत को धमकी देने वालों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमने भारत की मदद के लिए एक चरमपंथी विरोधी कार्यबल का गठन किया है।

भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है ब्रिटेन

इससे पहले भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया था कि भारत ने

पारियां खेलकर टी20 टीम में वापसी की दस्तक दी है। वह इस सीजन केवल एक बार आउट हुए हैं और उन्होंने सात मैचों में 205.88 के स्ट्राइक रेट से 210 रन ठोक दिए हैं। खासकर तेज़ गेंदबाजों पर उन्होंने 238.23 के स्ट्राइक रेट से 162 रन निकाले हैं।बेंगलुरु के लिए शुरुआती कुछ मैच चूकने के बाद हैजुलवुड ने पिछली दो जीत में अहम भूमिका निभाई है, जहां उनके गेंदबाजी आंकड़ें 4/25 और 3/28 रहे हैं। वह 2022 में टी20 में शानदार लय में हैं, जहां पर उन्होंने छह मैचों में 16 विकेट अपने

नाम किए हैं। हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिकने पिछले मैच में 2ं8 किंग्स के खिलाफ़ चार ओवर में 2ं8 रन देकर चार विकेट लिए थे, जहां एक मेडन ओवर में तीन विकेट शामिल थे। उन्होंने हैदराबाद के लिए इस सीजन छह मैचों में नौ विकेट लिए हैं। निकोलस पूरन ने इस सीजन ज्यादा गेंद खेलने को नहीं मिलने के बाद भी उन्होंने छह मैचों में 113 रन बनाए हैं, जिसमें हक केवल दो बार आउट हुए। वह 2022 में अच्छी लय में हैं, जहां पर उन्होंने 14 टी20 मैचों में 51.22 के औसत से 461 रन बनाए हैं।

पॉटिंग परिवार का एक सदस्य कोरोना से संक्रमित

मुंबई। दिल्ली कैपिटल्स के दल में कोरोना संक्रमण का एक और मामला सामने आया है। टीम के प्रमुख कोच रिकी पॉटिंग के परिवार का एक सदस्य कोरोना की चपेट में आ गया है। इसी कारण से पूरे पॉटिंग परिवार को क्वारंटीन करने के लिए एक अलग स्थान पर ले जाना गया है।

दिल्ली कैपिटल्स ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। इस बयान के अनुसार पॉटिंग परिवार का पूरा खयाल रखा जा रहा है। इसके बाद पॉटिंग को दो कोरोना टेस्ट से गुज्रना पड़ा जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। हालांकि टीम के हित को मद्देनज़र रखते हुए टीम प्रबंधन और मेडिकल टीम ने यह निर्णय लिया है कि वह पांच दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे। पॉटिजिटिव पाए गए व्यक्ति के करीबी संपर्क होने के कारण एक पॉटिंग शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध दिल्ली कैपिटल्स के अगले मैच के दौरान मैदान पर मौजूद नहीं रहेंगे। अपने बयान में दिल्ली कैपिटल्स ने गुज़ारिश की हैं कि इस समय पॉटिंग और उनके परिवार की निजता का सम्मान किया जाए। यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली



कैपिटल्स में कोई कोरोना संक्रमित पाया गया है। इससे पहले 16 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ़ हुए मुकाबले से एक दिन पहले टीम के फिज़ियो पैट्रिक फुरहाड कोरोना पॉज़िटिव पाए गए थे। दो दिन बाद टीम के ऑलराउंडर मिचेल मार्श, स्पॉटर्स मसाज थेरेपिस्ट चेतन कुमार, टीम डॉक्टर अभिजीत साल्की और सोशल मीडिया सदस्य आकाश माने पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा

आईपीएल के नियमों के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी टूर्नामेंट के बबल में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे कम से कम सात दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। बबल में फिर से प्रवेश करने के लिए 24 घंटे के भीतर उनके दो

आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव आने चाहिए। अगर किसी टीम के एक से अधिक खिलाड़ी कोविड पॉज़िटिव हैं, तो भी कम से कम 12 खिलाड़ी उपलब्ध होने पर वे मैच खेल सकते हैं, जिनमें कम से कम सात भारतीय खिलाड़ी और एक सन्टीट्यूट का होना अनिवार्य है। 12 से कम खिलाड़ी उपलब्ध होने पर आईपीएल प्रबंधन निर्णय लेगा।

असंतुष्ट सांसदों के लिए इस्तीफा ही एकमात्र सम्मानजनक रास्ता : पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर ने शुक्रवार को कहा कि असंतुष्ट सांसदों के लिए एकमात्र सम्मानजनक रास्ता यही है कि वे इस्तीफा देकर अपने घर चले जाएं। न्यायामूर्ति अख्तर देश के संविधान के अनुच्छेद 63–ए की व्याख्या के अनुरोध वाले राष्ट्रपति के संदर्भ (प्रेसीडेंशियल रेफरेंस) की सुनवाई कर रही पांच सदस्यीय पीठ का हिस्सा है। समाचार पत्र ‘डान’ ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। न्यायमूर्ति अख्तर का यह जवाब सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग –नवाज़ (पीएमएल–एन) की तरफ से पेश हुए वकील के इस तर्क के संदर्भ में था कि पार्टी के प्रति बेवफाई देश के प्रति बेवफाई से अलग है।इससे पहले, न्यायमूर्ति अख्तर ने संसदीय लोकतंत्र में दलबदल की तुलना केंसर से हुई मानन शरीर में क्षति से की थी। यह पांच सदस्यीय पीठ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की सुनवाई कर रही है, जिसके तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी नेता के निर्देशों के खिलाफ मतदान करने वाला सांसद अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

पाकिस्तान में 5 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 4 आतंकी डेर

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खैबर, पेशावर और नोशेरा जिलों में दो घटनाओं में कम से कम पांच सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई, साथ ही बमू में एक खुफिया–आधारित अभियान में चार आतंकवादी मारे गए। अंग्रेजी दैनिक ‘डान’ ने शुक्रवार को सूचना दी।पहली घटना तब हुई जब नोशेरा जिले के अकरोी चोक पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियां चला दीं। दूसरी घटना में खैबर के बारा इलाके में एक सुरक्षा जांच चौकी पर देर रात हुए हमले में एक सॉधिम आतंकवादी के साथ तीन सुरक्षा कर्मी मारे गए। पुलिस के मुताबिक बुधवार देर रात खैबर एजेंसी के अक़ाखेल इलाके के मिलवार्ड के अजब तालाब इलाके में एक चौकी पर कुछ हथियारबंद लोगों ने सुरक्षाकर्मियों पर गोलियां चला दीं। इस बीच, प्रांतीय राजधानी के बाहरी इलाके सरबंद इलाके में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जब अज्ञात हमलावरों ने एक चेकोफ़ोस्ट पर गोलियां चला दीं।

पाकिस्तान : राष्ट्रपति अल्वी ने दिलायी तीन केंद्रीय मंत्रियों को शपथ

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शुक्रवार को एवान–ए–सदर में आयोजित एक सप्ते समारोह में तीन नव नियुक्त केंद्रीय मंत्रियों और एक राज्य मंत्री को पद की शपथ दिलायी। आज शपथ लेने वाले तीन केंद्रीय मंत्रियों में पीएमएल–ब्यू के चौधरी सलिक हुसैन, पीएमएल–एन के जावेद लतीफ और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी–मेंगल (बीएनपी) के आगा हसन बलूच शामिल हैं। उनके अलावा बीएनपी–मेंगल के मोहम्मद हाशिम नोटेजई ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इससे पहले, मंगलवार को श्री अल्वी की बजाय सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजारानी ने कैबिनेट के सदस्यों को शपथ दिलायी थी।

रूस में वैज्ञानिक संस्थान में आग लगने से छह की मौत, 30 घायल

मॉस्को। रूस के त्वर में रूसी एरोस्पेस रक्षा बलों (एनआईआई) के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में आग लगने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गयी और 30 अन्य झुलस गये हैं। आपातकालीन सेवाओं ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक सूत्र ने बताया कि गुरुवार को हुए इस हादसे में 30 लोग झुलस गये, जिनमें से छह की मौत हो गयी। एक अन्य सूत्र ने बताया कि स्थानीय समानुस्यार सुबह 07: 33 बजे आग पर काबू पा लिया गया। मीडिया ने बताया कि त्वर स्थित रूसी रक्षा मंत्रालय के एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में प्रशासनिक भवन के एक परिसर में गुरुवार को आग लग गयी। संस्थान के अंदर से कर्मचारियों को निकाल लिया गया है और आग को 2,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र के बाहर फैलने से रोक दिया गया। शहर के अधिकारियों ने शुरू में बताया था कि 13 लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआँ... से मुद्रित एवं , ब्लाक नं 23 मकान नं 399 त्रिलोक पुरी दिल्ली -91 से प्रकाशित

संपादक: प्रवीण कुमार सिंह, आरएनआई नं. -DELHIN/2011/38334, किसी भी विवाद के लिए पीआरबी एक्ट अंतर्गत उत्तरदायी, टेलीफोन नं.: 011-26700510/11, ई-मेल : info@gauravshalibharat.com, समस्त विवादो का न्यायलय दिल्ली होगा



टॉप फूड कम्बीनेशन्स रखेंगे आपको स्वस्थ

यहां हम आपको ऐसे फूड कम्बीनेशन्स के बारे में बता रहे हैं जो आपको स्वस्थ रखने में सहायक होंगे।

कम्बीनेशन - एकसद्दा वर्जिन ऑलिव ऑयल तथा टमाटर
इससे आपको मिलती है - रोगों से बढिया सुरक्षा
टमाटरों में चार मुख्य कैरोटीनोएड्स यानी अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन तथा लाइकोपीन के साथ-साथ तीन मुख्य एंटीऑक्सीडेंट्स यानी बीटा कैरोटीन, विटामिन ई तथा विटामिन सी पाए जाते हैं जो आपकी कैंसर तथा हृदय रोग से लड़ने में सहायता करते हैं। यह रक्षात्मक केमिकल्स एकसद्दा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ लिए जाए तो बढिया है। एकसद्दा वर्जिन ऑलिव ऑयल में स्वास्थवर्धक मोनोसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होती है।
सेवन - टमाटर का छिलका न उतारें क्योंकि इसमें फाइटो केमिकल्स होते हैं। एकसद्दा वर्जिन ऑलिव बहुत कम प्रसंस्कृत रूप होता है। इसलिए इसमें बहुत ही लाभदायक यौगिक मौजूद होते हैं। इसे ताप तथा रोशनी से दूर स्टोर करें।
कम्बीनेशन - हरी फूल गोभी तथा टमाटर
इससे आपको मिलती है - कैंसर से सुरक्षा।
हरी फूलगोभी तथा टमाटर में कैंसर से लड़ने वाले गुण मौजूद होते हैं परन्तु एक अध्ययन से पता चला है कि दोनों का कम्बीनेशन कैंसर से लड़ने में दोगुणा प्रभाव डालता है। विज्ञानियों ने शोध में पाया कि एक ही वक्त पर टमाटर तथा हरी फूल गोभी का सेवन करने से कैंसर युक्त प्रोस्टेट ट्यूमर्स के विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है।
सेवन - डेढ़ कप हरी फूल गोभी का अढ़ाई कप ताजे टमाटरों के साथ पिकका या स्वापेटी के साथ सेवन करें।
कम्बीनेशन - ग्रीन टी तथा नींबू
इससे आपको मिलता है - एक स्वस्थ हृदय।
ग्रीन टी शक्तिशाली एंटी ऑक्सीडेंट्स कैटेचिनस का भरपूर स्रोत है जो हृदय के स्वास्थ को सुधारने के लिए जाना जाता है। फिर भी अध्ययनों के अनुसार इन यौगिकों को सिर्फ 20 प्रतिशत ही मानवीय शरीर द्वारा जञ्ज किया जाता है। ग्रीन टी में नींबू का रस मिलाने से पता चला है कि कैटेचिनस का स्तर 80 प्रतिशत तक बढ़ जाता है।
सेवन - ग्रीन टी तैयार करने के बाद इसमें एक पूरे नींबू का रस निचोड़ें और पीएं।
कम्बीनेशन - जौ का दलिया तथा स्ट्राबेरीका
इससे आपको मिलता है - एक स्वस्थ हृदय।
जौ में दो महत्वपूर्ण फाइटो केमिकल्स एवेनेंशामाइड्स तथा फिनोलिक एसिड्स पाए जाते हैं जो विटामिन सी के साथ मिलकर बुरे कोलेस्ट्रॉल के हानिकारक प्रभावों को कम करते

हैं और प्लाक के निर्माण को रोक कर हृदयघात से आपकी रक्षा करते हैं।
सेवन - सुबह के समय एक कटोरी जौ के दलिये के साथ आधा कप कटी हुई स्ट्रॉबेरीका का सेवन करें।
कम्बीनेशन - दालचीनी तथा होलगेन टोस्ट
इससे आपको मिलता है - अतिरिक्त ऊर्जा तथा तेजी से वजन कम होना।
टोस्ट पर दालचीनी छिड़कने से ब्लड शूगर एक स्वस्थ स्तर तक रह सकती है जिससे आपकी ऊर्जा में आने वाली कमी रुकती है और साथ ही आपकी भूख का स्तर भी बाधित होता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रीशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दालचीनी भोजन के बाद पेट के खाली होने की दर को धीमा करती है और साथ ही ब्लड शूगर के स्तर को भी कम करती है।
ऐसे करें सेवन - होलगेन ब्रेड, ट्रांस फी मारग्रिन तथा एक चम्मच दालचीनी का सेवन करें।
कम्बीनेशन - लहसुन तथा प्याज
इससे आपको मिलती है - पूरे शरीर की सुरक्षा।
इन दोनों सब्जियों में बहुत सारे अर्रिंगेनोसल्फर यौगिक तथा हृदय को स्वस्थ रखने वाले प्लांट केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपकी धमनियों को प्लाक से मुक्त रखते हैं। इन यौगिकों में से कुछ में शरीर में से कारिसिनोजेन्स को डिऑक्सीफाई करने की ताकत पाई गई है।
सेवन - अधिकतर भारतीय रसोइयों में लहसुन तथा प्याज का कम्बीनेशन आम देखने को मिलता है। फिर भी यदि आपका मुँह कुछ और खाने का हो तो लहसुन तथा प्याज के कम्बीनेशन का सेवन सूप तथा सॉस के माध्यम से भी किया जा सकता है।
कम्बीनेशन - ग्रीन टी तथा काली मिर्च
इससे आपको मिलती है - अत्यधिक पतली कमर।
क्रैश डाइटिंग को भूल जाएं। अपने अगले भोजन में एक कप ग्रीन टी में थोड़ी-सी काली मिर्च मिलाकर पीएं। इस कम्बीनेशन से ई.जी.सी.जी. नामक एंटीऑक्सीडेंट की खपत में बढ़ोतरी होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी में कैल्शियम बॉनिंग के लिए जाना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन टी में मौजूद यौगिक हार्मोन्स को प्रभावित कर सकते हैं जो भूख तथा संतुष्टि को नियंत्रित करते हैं।
सेवन - अध्ययनों से पता चला है कि आधा छोटा चम्मच काली मिर्च से ग्रीन टी के लाभदायक यौगिकों की खपत में बढ़ोतरी हो सकती है।

जब आपके घर हों किटी पार्टी



एक दिन पहले ही योजना बना लें

सारे काम समय पर और सही ढंग से हों, इसके लिए आपको एक दिन पहले ही योजनानुसार सारी सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए और घर की साज-सजावट के अलावा पार्टी में खिलाने वाले गेम्स भी तैयार कर लें ताकि पार्टी वाले दिन इन छोटे-मोटे कामों को करने में समय बर्बाद ना हो।

ड्रेस तैयार करें

ऐसा ना हो कि पार्टी की तैयारी करते हुए आप अपनी ड्रेस के बारे में सोचना ही भूल जाएं। दूसरी महिलाओं के आगे आपकी चमक फीकी ना पड़ जाए। ऐसे में आप थीम के हिसाब से किटी के एक दिन पहले ही पहनने वाली ड्रेस तैयार कर लें।

खाने-पीने की चीजें पहले से बना कर रख लें

किटी पार्टी शुरू होने के बाद आप कम से कम समय किचन में बिताएं, इसके लिए जरूरी है कि पार्टी के लिए तैयार किए गए व्यंजनों को ऐसे बर्तनों में पहले से रख लें, जिसे माइक्रोवेव में गर्म किया जा सके।

गेम्स का भी हो मजा

किटी पार्टी में तंबोला के अलावा पेपर फोल्डिंग गेम्स के साथ-साथ हिंदी फिल्मी गानों पर गेम तैयार किए जा सकते हैं।


ऐसे हों आप तैयार

केले को अच्छे से मसलकर उसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें, इसके अलावा आलू काटते समय आलू के रस को अपने हाथों पर रगड़ लें। 15 मिनट बाद फ्रीजर में रखे हुए केले के पैक को पूरे चेहरे और गर्दन पर 10 मिनट के लिए लगा लें। 10 मिनट बाद चेहरे पर लगे पैक को ठंडे पानी से धो लें। किचन में खाना बनाते समय महिलाओं के हाथ पूरी तरह चिकनाई और हल्दी वाले हो जाते हैं। आलू का रस लगा लें। इससे हाथों की चिकनाई हटाने में मदद मिलती है। सर्दी के मौसम में ब्लैक लेगिंग के साथ किसी भी गहरे रंग का लंबा स्वेटर और साथ में स्टोल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इन दिनों चेहरे पर हल्का मेकअप ही अच्छा लगता है। सीनियर व्यूटीशियन मोनिका का कहना है कि 10 मिनट चेहरे पर लगाया गया केले का पैक डेड स्किन हटाने का काम करता है। पार्टी शुरू होने से पहले चेहरे पर माइस्चराइजर में हल्का फाउंडेशन मिलाकर पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। हल्का आईलाइनर का इस्तेमाल करते हुए हल्की रंग की लिपिस्टिक लगाएं। नाखूनों पर भी हल्के रंग की नेल पॉलिश का इस्तेमाल करें।



गुरुपतिथि 23 अप्रैल के अवसर पर

सत्यजीत रे ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई



मुंबई। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सत्यजीत रे एक ऐसे फिल्मकार के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी निर्मित फिल्मों से भारतीय सिनेमा जगत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई। सत्यजीत रे का जन्म कलकत्ता में दो मई 1921 को एक उच्च घराने में हुआ था। उनके दादा उपेन्द्र किशोर रे वैज्ञानिक थे, जबकि उनके पिता सुकुमार रे लेखक थे। सत्यजीत रे ने अपनी स्नातक की पढ़ाई कलकत्ता के महात्मा प्रेसीडेंसी कॉलेज से पूरी की इसके बाद अपनी माँ के कहने पर उन्होंने रवीन्द्र नाथ टैगोर के शांति निकेतन में दाखिला ले लिया जहाँ उन्हें प्रकृति के करीब आने का मौका मिला। शांति निकेतन में करीब दो वर्ष रहने के बाद सत्यजीत रे वापस कलकत्ता आ गये।

सत्यजीत रे ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1943 में ब्रिटिश एडवर्टाइजमेंट कंपनी से बतौर 'जूनियर विजुअलायजर' से की, जहाँ उन्हें 18 रुपये महीने बतौर पारिश्रमिक मिलते थे। इस बीच वह डी.के.गुप्ता की पब्लिशिंग हाउस 'सिगनेट प्रेस' से जुड़ गये और बतौर डिजाइनर काम करने लगे। बतौर डिजाइनर उन्होंने कई पुस्तकों का डिजाइन तैयार किया इसमें जबाहर लाल नेहरू की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' प्रमुख है। वर्ष 1949 में सत्यजीत रे की मुलाकात फ्रांसीसी निर्देशक जीन रेनोइर से हुयी जो उन दिनों अपनी फिल्म 'द रिबर' के लिये शूटिंग लोकेशन की तलाश में कलकत्ता आये थे। जीन रेनोइर ने सत्यजीत रे की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म निर्माण की सलाह दी। वर्ष 1950 में सत्यजीत रे को अपनी कंपनी के काम के कारण लंदन

जाने का मौका मिला जहाँ उन्होंने लकरीबन 100 अंग्रेजी फिल्मों देख डालीं इसी दौरान उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म 'बाइसाईकिल थ्रीफस' देखने का मौका मिला। फिल्म की कहानी से सत्यजीत रे काफी प्रभावित हुये और उन्होंने फिल्मकार बनने का फैसला कर लिया। सत्यजीत रे बांग्ला साहित्यकार विभूति भूषण बंधोपाध्याय के उपन्यास 'विलडंगसरोमन' से काफी प्रभावित थे और उन्होंने उनके इस उपन्यास पर 'पाथेर पांचाली' नाम से फिल्म बनाने का निश्चय किया। फिल्म पाथेर पांचाली के निर्माण में लगभग तीन वर्ष लग गये। फिल्म निर्माण के क्रम में सत्यजीत रे की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गयी जिससे फिल्म निर्माण की गति धीमी पड़ गयी। बाद में पश्चिम बंगाल की सरकार के सहयोग से फिल्म को पूरा किया जा सका। वर्ष 1955 में प्रदर्शित फिल्म पाथेर पांचाली ने कोलकाता के सिनेमाघरों में लगभग 13 सप्ताह हाऊसफुल चली। इस फिल्म को

फ्रांस में प्रत्येक वर्ष होने वाली प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे 'बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट' का विशेष पुरस्कार भी दिया गया। फिल्म पाथेर पांचाली के बाद सत्यजीत रे ने फिल्म 'अपराजितो' का निर्माण किया। इस फिल्म में युवा अर्पू की महत्वाकांक्षा और उसे प्यार वाली एक माँ की भावना को दिखाया गया है। फिल्म जब प्रदर्शित हुयी तो इसे सभी ने पसंद किया लेकिन महात्मा गांधी समीक्षक मुगाल सेन और ऋत्विक् घटक ने इसे पाथेर पांचाली से बेहतर माना। फिल्म वीनस फेस्टिवल में गोल्डेन लॉयन अवार्ड से सम्मानित की गयी। वर्ष 1962 में सत्यजीत रे अपने दादा की पत्रिका 'संदेश' की एक बार फिर से स्थापना की। सत्यजीत रे की पहली रंगीन फिल्म 'महानगर' वर्ष 1963 में प्रदर्शित हुयी। जया बाहुदुई ने इसी फिल्म से अपने सिने कैरियर की शुरुआत की थी।

कीर्तिमान स्थापित किये। फिल्म के प्रदर्शन के बाद सत्यजीत रे ने कहा था यदि उत्तम कुमार इस फिल्म में काम करने से मना करते तो वह फिल्म का निर्माण नहीं करते। वर्ष 1969 में अपने दादा की रचित लघु कथा पर सत्यजीत रे ने गूपी गायन बाया बायन का निर्माण किया। फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुयी साथ ही बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हुयी। वर्ष 1977 में सत्यजीत रे के सिने कैरियर की पहली हिंदी फिल्म 'शतरंज के खिलाड़ी' प्रदर्शित हुयी संजीव कुमार, सईद जाफरी और अमजद खान की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म हालांकि टिकट खिड़की पर अपेक्षित सफलता नहीं अर्जित कर सकी लेकिन समीक्षकों के बीच यह काफी सराही गयी। वर्ष 1978 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल की संचालक समिति ने सत्यजीत रे को विश्व के तीन सर्वश्रेष्ठ ऑल टाइम डायरेक्टर में एक के रूप में सम्मानित किया। अस्सी के दशक में स्वास्थ्य खराब रहने के कारण सत्यजीत रे ने

फिल्मों का निर्माण करना काफी हद तक कम कर दिया। फिल्म 'घरे बाड़े' के निर्माण के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। इसके बाद डाक्टर ने सत्यजीत रे को फिल्म में काम करने से मना कर दिया। लगभग पांच वर्ष तक फिल्म निर्माण से दूर रहने के बाद वर्ष 1987 में सत्यजीत रे अपने पिता सुकुमार रे पर एक वृत्तचित्र का निर्माण किया। सत्यजीत रे को अपने चार दशक लंबे सिने कैरियर में मान-सम्मान खूब मिला। उन्हें भारत सरकार की ओर से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं के लिए 32 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे ने वह दूसरे फिल्म कलाकार थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डाक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1985 में सत्यजीत रे को हिंदी फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावे उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उनके चमकदार कैरियर में एक गौरवपूर्ण नया अध्याय तब जुड़ गया जब 1992 में उनके उल्लेखनीय कैरियर को देखते हुये उन्हें ऑस्कर के 'लाइफ टाइम अचीवमेंट' सम्मान से सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे ने अपने सिने कैरियर में 37 फिल्मों का निर्देशन किया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म 'आंगतुक' सत्यजीत रे के सिने कैरियर की आखिरी फिल्म साबित हुयी। अपनी निर्मित फिल्मों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने 23 अप्रैल 1992 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया।